



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31—अगस्त 6, 2010 (श्रावण 9, 1932)

No. 31]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31—AUGUST 6, 2010 (SRAVANA 9, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2010

सेना शाखा

सं. 387, दिनांक 22 जून 2010—राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2009 से

निम्नलिखित 125 नियमित पादयक्रम (125 डाइरेक्ट एंट्री, 115 एनडीए, 92 एसीसी) के कैंडिडेटों को सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2009 से स्थाई रूप से सेना निर्देश ए/एस/74 (डाइरेक्ट एंट्री), सेना निर्देश 53/78 को विशेष सेना निर्देश 4/एस/74 को साथ पढ़ा जाये (एनडीए), सेना निर्देश 55/73 (एक्स ए सी सी) के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है :—

आईसी सं., नाम तथा आर्म/सर्विस

(आईसी-71713पी) रवि शुक्ला, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71714एक्स) हर्षवर्धन पाठक, एसी

(आईसी-71715ए) रोहित पंडिता, एसी

(आईसी-71716एच) अभिषेक सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71717एल) योगेश तमंग, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71718एन) योगेन्द्र सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71719डब्ल्यू) विनीत कुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71720एल) अवशेष सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71721एन) दीक्षान्त महाजन, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71722डब्ल्यू) वीरण मल्लिकार्जुन करडि, इंजीनियर्स

(आईसी-71723वाई) रवि कुमार, आर्टी

(आईसी-71724एफ) आदित्य शर्मा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71725के) अरूण कुमार, आर्टी

(आईसी-71726एम) अनुराग चौहान, आर्टी

(आईसी-71727पी) हेमंत कुमार सैनी, ईएमई

(आईसी-71728एक्स) अनुराग दर्शन, आर्टी

(आईसी-71729ए) सचिन खोखर, एओसी  
 (आईसी-71730पी) लालदिनपुडिया, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71732ए) जोशी मंदार श्रीधर, मैक  
 (आईसी-71733एच) अंकित तोमर, आर्टी  
 (आईसी-71734एल) बेसरी लाल, आर्टी  
 (आईसी-71735एन) आनन्द मणि त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71736डब्ल्यू) धनेश दत्त उपाध्याय, एएडी  
 (आईसी-71737वाई) गौरव गुप्ता, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71738एफ) सामुदे सुबोध रमेशराव, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71739के) संजय रावत, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71740वाई) राहुल चौहान, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71741एफ) गिरीश तिवारी, एएससी  
 (आईसी-71742के) पुजारी रोहित शिवाजी, आर्टी  
 (आईसी-71743एम) सुभाष गुरूग, एएससी  
 (आईसी-71744पी) कंवर राय दीप सिंह गुलेरिया, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71745एक्स) प्रतीक भंडारी, एसी  
 (आईसी-71746ए) निर्मल कुमार जे, आर्टी  
 (आईसी-71747एच) पुनीत गुप्ता, एएडी  
 (आईसी-71748एल) जय प्रकाश सैनी, एसी  
 (आईसी-71749एन) अविनाश साहेबराव डांगे, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71750एच) उपेश कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71751एल) संदीप बैनीवाल, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71752एन) के पवन कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71753डब्ल्यू) अंशुल ओबड़, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71754वाई) अजय सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71755एफ) विष्णु कुमार कटारा, इंटर  
 (आईसी-71756के) अमर भास्कर, आर्टी  
 (आईसी-71757एम) अमरदीप, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71758पी) वैकट रवि किरण जे, आर्टी  
 (आईसी-71759एक्स) शरण नायर, आर्टी  
 (आईसी-71760एम) संजय कुमार, एएससी  
 (आईसी-71761पी) ज्ञानेन्द्र मधुकर, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71762एक्स) चन्द्र मणी त्रिपाठी, एएडी  
 (आईसी-71763ए) पंकज पाठक, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71764एच) सुशांत कुमार, एएससी

(आईसी-71765एल) सोहन सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71766एन) पवन कुमार सिन्हा, आर्टी  
 (आईसी-71767डब्ल्यू) अतिन्दर पाल सिंह मान, मैक  
 (आईसी-71768वाई) ईशान कटोच, आर्टी  
 (आईसी-71769एफ) उदित गुप्ता, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71770डब्ल्यू) वैभव पाण्डेय, आर्टी  
 (आईसी-71771वाई) हिमांशु अरोड़ा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71772एफ) राजेन्द्र सिंह अधिकारी, एओसी  
 (आईसी-71773के) सरस गांधी, आर्टी  
 (आईसी-71774एम) जैनेन्द्र सिंह, एओसी  
 (आईसी-71775पी) निखिलेश्वर झा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71776एक्स) हरेन्द्र सिंह, एविएशन  
 (आईसी-71777ए) अनिल कुमार, आर्टी  
 (आईसी-71778एच) हर्ष भरत जानी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71779एल) अब्दुल कादीर, आर्टी  
 (आईसी-71780ए) दिनेश गुनियां, एसी  
 (आईसी-71781एच) जोनाथन लालरैमस्आत, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71782एल) उत्सव, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71783एन) मनोज यादव, आर्टी  
 (आईसी-71784डब्ल्यू) वैभव खन्ना, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71785वाई) मनीष कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71786एफ) विनोद सिंह बोहरा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71787के) के मुरली मोहन, मैक  
 (आईसी-71788एम) अचल कुमार कश्यप, आर्टी  
 (आईसी-71789पी) हिम्मत सिंह, एएससी  
 (आईसी-71790के) अंशुमान डांगवाल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71791एम) अभिनव रावत, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71792पी) बिजोन कान्ति रॉय, एएडी  
 (आईसी-71793एक्स) आर के भानू चन्द्र, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71794ए) नितिन कुमार, सिग्नल्स  
 (आईसी-71795एच) अजय कुमार, आर्टी  
 (आईसी-71796एल) निखिल नाम्बयार, इन्फैन्ट्री

- (आईसी-71797एन) प्रफुल्ल कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71798डब्ल्यू) अजीतपाल सिंह धनोआ, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71799वाई) डी अरूण कुमार, एओसी  
 (आईसी-71800एच) अखिलेश सिंह परिहार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71801एल) हेमंत कुमार कोठीवाले, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71802एन) रिषभ गर्ग, ईएमई  
 (आईसी-71803डब्ल्यू) प्रदीप सिंह, आर्टी  
 (आईसी-71804वाई) शरिक आज़ाद, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71805एफ) हर्ष पठानियाँ, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71806के) ओम प्रकाश भोला, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71807एम) सुरेन्द्र सिंह कार्की, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71808पी) पीयूष कुमार, आर्टी  
 (आईसी-71809एक्स) विनय फौगट सिंह, एओसी  
 (आईसी-71810एम) दिगम्बर सिंह रावत, एओसी  
 (आईसी-71811पी) विरल सुभाष मोमाया, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71812एक्स) नवल किशोर, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71813ए) नितीश कुमार सिंह, ईएमई  
 (आईसी-71814एच) महेन्द्र राठौड़, मैक  
 (आईसी-71815एल) प्रतीक गुप्ता, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71816एन) गुरबिन्दरपाल सिंह, आर्टी  
 (आईसी-71817डब्ल्यू) मणि कृष्णा, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71818वाई) सोमप्रभ शुक्ला, आर्टी  
 (आईसी-71819एफ) जितेश पी आर, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71820डब्ल्यू) अशोक के, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71821वाई) हेमराज सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71822एफ) डी सुरेश कुमार, आर्टी  
 (आईसी-71823के) नरेन्द्र कुमार शर्मा, एएससी  
 (आईसी-71824एम) अनुभव कुमार, एएडी  
 (आईसी-71825पी) सुन्याल राजेन्द्र एन, आर्टी  
 (आईसी-71826एक्स) मनिन्दर सिंह, एसी  
 (आईसी-71827ए) सुनील कोशल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71828एच) राहुल कुमार थापा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71829एल) जितिन थोमस, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71830ए) प्रितपाल सिंह, आर्टी  
 (आईसी-71831एच) सौरभ डिमरी, आर्टी  
 (आईसी-71832एल) नौशाद, आर्टी  
 (आईसी-71833एन) ओंकार लहू कणसे, एएससी  
 (आईसी-71834डब्ल्यू) दीपक कुमार उपाध्याय, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71835वाई) विश्वजीत कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71836एफ) अभिषेक अवस्थी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71837के) अरूण शर्मा, सिग्नल्स  
 (आईसी-71838एम) कौशल छेत्री, एएडी  
 (आईसी-71839पी) नितिन शंकर, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71840के) वरूण ग्लोच, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71841एम) परीक्षित दास, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71842पी) मनोज कुमार जोशी, मैक  
 (आईसी-71843एक्स) विक्रान्त पंवार, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71844ए) सुनिल शंकरराव रामलोड, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71845एच) विभोर त्यागी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71846एल) शिखर क्रिस्टोफर मैस्टन, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71847एन) प्रयन्त बेदवाल, एएससी  
 (आईसी-71848डब्ल्यू) अनुज राठौर, एओसी  
 (आईसी-71849वाई) ऋत्विक् साँकृत, आर्टी  
 (आईसी-71850एन) सिद्धार्थ सिंह, ईएमई  
 (आईसी-71851डब्ल्यू) मनीष सिंह, आर्टी  
 (आईसी-71852वाई) गौरव किन्हा, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71853एफ) हरेन्द्र सिंह, आर्टी  
 (आईसी-71854के) दिव्यांकित नैनवाल, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71855एम) नवीन यादव, आर्टी  
 (आईसी-71856पी) अरूण प्रकाश अम्बती, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71857एक्स) सचिन शिवलिंग होनवाड़, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71858ए) अभिषेक कुमार सिंह, इंटर  
 (आईसी-71859एच) पुष्प शर्मा, आर्टी  
 (आईसी-71860एक्स) विकास दीक्षित, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71861ए) एस बालासुब्रामनियण, एसी  
 (आईसी-71862एच) सरोज कुमार यादव, एएससी

(आईसी-71863एल) ए पी राहुलदास, एसी  
 (आईसी-71864एन) अमित जांगड़ा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71865डब्ल्यू) चिंथाम धनचंद्र सिंह, आर्टी  
 (आईसी-71866वाई) अतुल कुमार सिंह, एएससी  
 (आईसी-71867एफ) मनोष चहल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71868के) अतला अरविंद्र कुमार रेड्डी, एएडी  
 (आईसी-71869एम) भोज बहादुर थापा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71870एफ) अजय कुमार सिंह, आर्टी  
 (आईसी-71871के) अनिमेष त्रिपाठी, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71872एम) मणिकडन एस, आर्टी  
 (आईसी-71873पी) सौरभ सुमन, आर्टी  
 (आईसी-71874एक्स) मनोज कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71875ए) सुब्रोतो अधिकारी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71876एच) सूरजेन्द्र सिंह, आर्टी  
 (आईसी-71877एल) चन्दन कुमार सुमन, आर्टी  
 (आईसी-71878एन) प्रमोद कुमार, सिग्नल्स  
 (आईसी-71879डब्ल्यू) झाला संदीप कुमार भरतसिंह, एएससी  
 (आईसी-71880एल) गगनदीप सिंह सेठी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71881एन) मनोष कुमार, ईएमई  
 (आईसी-71882डब्ल्यू) राकेश सिंह, आर्टी  
 (आईसी-71883वाई) सुरेश चन्द राजन, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71884एफ) वैभव विशाल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71885के) संचित गुप्ता, आर्टी  
 (आईसी-71886एम) सिद्धार्थ त्यागी, मैक  
 (आईसी-71887पी) मनोज कुमार मिश्रा, एएससी  
 (आईसी-71888एक्स) सतीश पाल, एएडी  
 (आईसी-71889ए) विनीत कुमार पाण्डेय, आर्टी  
 (आईसी-71890पी) एम वेलूमुरगन, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71891एक्स) लक्ष्मण सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71892ए) हेम राज, एओसी  
 (आईसी-71893एच) गुरप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71894एल) विनोद जोशी, आर्टी

(आईसी-71895एन) अमन सिंह, एसी  
 (आईसी-71896डब्ल्यू) सौरभ महाजन, आर्टी  
 (आईसी-71897वाई) तुषार बर्गली, एएडी  
 (आईसी-71898एफ) बिमल सिंह, एओसी  
 (आईसी-71899के) विपिन यादव, आर्टी  
 (आईसी-71900एन) सुरेन्द्र प्रताप सिंह, आर्टी  
 (आईसी-71901डब्ल्यू) प्रतिक श्रीरंग फुले, एएससी  
 (आईसी-71902वाई) बिजु चाबूक धारा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71903एफ) अरोनी दास, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71904के) प्रकुल दीक्षित, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71905एम) वाई वी नरासिम्हन, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71906पी) दीपक किशोर रावत, एसी  
 (आईसी-71907एक्स) मथन कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71908ए) दीपक कुमार सिंह, एएससी  
 (आईसी-71909एच) उन्नीकुट्टन एस, इंटर  
 (आईसी-71910एक्स) विकास सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71911ए) रंगराजन जी, ईएमई  
 (आईसी-71912एच) धीरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71913एल) आशीष उपाध्याय, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71914एन) सुरेन्द्र मलिक, एओसी  
 (आईसी-71915डब्ल्यू) अभिलाष एस वी, एओसी  
 (आईसी-71916वाई) साई भार्गव नल्लागथला, आर्टी  
 (आईसी-71917एफ) सुरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71918के) गौरव जोशी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71919एम) चेतन सिंह कबसूरी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71920एफ) के जयंत, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71921के) संजय कुमार द्विवेदी, सिग्नल्स  
 (आईसी-71922एम) वैभव राना, एविएशन  
 (आईसी-71923पी) नीरज तोमर, आर्टी  
 (आईसी-71924एक्स) मृत्युंजय कुमार मिश्रा, आर्टी  
 (आईसी-71925ए) रोहित कुमार, आर्टी  
 (आईसी-71926एच) चंगडा रियाज एम बशीर, एविएशन

(आईसी-71927एल) राय संजेशकुमार सभाशंकर, आर्टी  
 (आईसी-71928एन) अंकित कुमार दुबे, आर्टी  
 (आईसी-71929डब्ल्यू) रोहित भाटिया, आर्टी  
 (आईसी-71930एल) प्रवीन हुड्डा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71931एन) सूखविन्द्र सिंह, एससी  
 (आईसी-71932डब्ल्यू) नसीम अहमद, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71933वाई) पीयूष सेठी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71934एफ) भरत यादव, एसी  
 (आईसी-71935के) मनदीप श्योकन्द, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71936एम) भाटिया लव तिलकराज, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71937पी) सुनील यादव, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71938एक्स) मुकेश राय, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71939ए) सिनु चन्द्रन, मैक  
 (आईसी-71940पी) रविन्द्र, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71941एक्स) हिमांशु, एएडी  
 (आईसी-71942ए) चौरनजीबी खत्री, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71943एच) कुलकर्णी सागर बालकृष्णा, आर्टी  
 (आईसी-71944एल) पी लिखित गौड़, एससी  
 (आईसी-71945एन) जस्टिन जोसेफ, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71946डब्ल्यू) आदित्य रैना, एओसी  
 (आईसी-71947वाई) सुशील कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71948एफ) राजेन्द्र सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71949के) राजेन्द्र प्रसाद, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71950वाई) विक्रम सिंह योगी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71951एफ) सुरेन्द्र के, आर्टी  
 (आईसी-71952के) राहुल कुमार, ईएमई  
 (आईसी-71953एम) शंकर दयाल शर्मा, आर्टी  
 (आईसी-71954पी) दिवेश कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71955एक्स) सुरेन्द्र प्रताप सिंह, आर्टी  
 (आईसी-71956ए) मनोज बस्नेत, एससी  
 (आईसी-71957एच) निखिल चौधरी, एससी  
 (आईसी-71958एल) मनोज कुमार तिवारी, इंजीनियर्स

(आईसी-71959एन) चन्द्रकान्त जोशी, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71960एच) रोबिन जेकब, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71961एल) केरीपाले स्वप्निल लक्ष्मण, आर्टी  
 (आईसी-71962एन) सुमित सिंह, आर्टी  
 (आईसी-71963डब्ल्यू) श्रद्धानन्द लाठर, एसी  
 (आईसी-71964वाई) सुनील कुमार आर्टी  
 (आईसी-71965एफ) शैलेन्द्र कुमार वर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71966के) जे हरीहारा कार्तिक वर्मा, एओसी  
 (आईसी-71967एम) सतीश दहिया, एससी  
 (आईसी-71968पी) सुनिल कुमार शर्मा, आर्टी  
 (आईसी-71969एक्स) प्रेमकुमार कृष्णा पाटिल, आर्टी  
 (आईसी-71970एम) कुंवर मनीष सिंह, एएडी  
 (आईसी-71971पी) जोसफ पी के, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71972एक्स) विकास सिंह, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71973ए) विनोद जसवाल, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71974एच) बी आईसक इन्वकुमार, आर्टी  
 (आईसी-71975एल) सुधीर, मैक  
 (आईसी-71976एन) दीपक कुमार सिंह चौहान, ईएमई  
 (आईसी-71977डब्ल्यू) सागर देशपांडे, एओसी  
 (आईसी-71978वाई) विकास ठाकुर, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71979एफ) प्रशान्त कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71980डब्ल्यू) देवेन्द्र गुलेरिया, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71981वाई) विनोद नेगी, आर्टी  
 (आईसी-71982एफ) सौम्या घटक, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71983के) मयंक शर्मा, आर्टी  
 (आईसी-71984एम) वरूण विपिन वैद्य, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71985पी) होलिनसन जान पिल्लै, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71986एक्स) सुमन कुमार जैना, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71987ए) अनुज कुमार झा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71988एच) आशीष मलिक, एससी  
 (आईसी-71989एल) उत्कर्ष मिश्रा, एओसी  
 (आईसी-71990ए) अजीत कुमार शुक्ला, आर्टी

- (आईसी-71991एच) आशीष शर्मा, आर्टी  
 (आईसी-71992एल) मधुर भट्ट, आर्टी  
 (आईसी-71993एन) नीरज शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71994डब्ल्यू) अमित कुमार चौबे, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71995वाई) नवीन कुमार धानूका, सिग्नल्स  
 (आईसी-71996एफ) सुनील मोर, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-71997के) अनुराग मित्तल, आर्टी  
 (आईसी-71998एम) संदीप डांगे, इंजीनियर्स  
 (आईसी-71999पी) शमशेर सिंह, इंटर  
 (आईसी-72000डब्ल्यू) आदित्य शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72001वाई) सचिन कुमार, मैक  
 (आईसी-72002एफ) विक्रम बहादुर सिंह, एएससी  
 (आईसी-72003के) सुभाष चन्द्र नेगी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72004एम) वी डब्ल्यू अखिल, एसी  
 (आईसी-72005पी) सतेंदर कुमार सिंह, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72006एक्स) मोहित गोयल, एसी  
 (आईसी-72007ए) कृष्ण सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72008एच) प्रफुल्ल घिल्लियाल, आर्टी  
 (आईसी-72009एल) अशोक कुमार, एएडी  
 (आईसी-72010ए) जतीष एन, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72011एच) अभिषेक कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72012एल) चौबे अनुप कुमार, ईएमई  
 (आईसी-72013एन) ठाकुर महेशसिंह रामशंकरसिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72014डब्ल्यू) गगनदीप सिंह पुरबा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72015वाई) अमित तोमर, आर्टी  
 (आईसी-72016एफ) प्रमोद मेहू, आर्टी  
 (आईसी-72017के) मनीष पारीक, आर्टी  
 (आईसी-72018एम) अमित कुमार पठानिया, आर्टी  
 (आईसी-72019पी) अमित राणा, एएससी  
 (आईसी-72020के) शशि कान्त, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72021एम) सुखद त्रिपाठी, एएडी  
 (आईसी-72022पी) अर्पित पारीक, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72023एक्स) वरुण वर्मा, आर्टी  
 (आईसी-72024ए) चिटिकरेड्डी श्रीधर, आर्टी  
 (आईसी-72025एच) सम्राट घोष, एओसी  
 (आईसी-72026एल) नितिन विजय, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72027एन) अंकुर अग्निहोत्री, आर्टी  
 (आईसी-72028डब्ल्यू) शरत मैन्नन, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72029वाई) भारत पाटनी, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72030एन) कुमार गौरव, एसी  
 (आईसी-72031डब्ल्यू) प्रशांत मिश्रा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72032वाई) प्रद्युम्न कुमार राय, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72033एफ) प्रशान्त त्रिपाठी, आर्टी  
 (आईसी-72035एम) ऋषभ मिश्रा, मैक  
 (आईसी-72036पी) करुणज्योत सिंह रैना, एसी  
 (आईसी-72037एक्स) अजय पाल सिंह रावत, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72038ए) भवानी भट्ट, ईएमई  
 (आईसी-72039एच) दीपांशु चौधरी, एएससी  
 (आईसी-72040एक्स) निखिल प्रकाश, आर्टी  
 (आईसी-72041ए) सौरभ तोमर, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72042एच) अजीत कुमार एम राजन, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72043एल) केल्लजी निखिल शशिकांत, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72044एन) विजय बैश्या, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72045डब्ल्यू) अमरीक सिंह, आर्टी  
 (आईसी-72046वाई) रमेश कुमार दास, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72047एफ) अजीत चौकसे, एएडी  
 (आईसी-72048के) भूपेश गुरुरानी, आर्टी  
 (आईसी-72049एम) विकास कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72050एफ) अरुण कुमार, आर्टी  
 (आईसी-72051के) अंकुश सिंह गेहलौत, आर्टी  
 (आईसी-72052एम) लाजु के आर, एविएशन  
 (आईसी-72053पी) विशाल राज, एओसी  
 (आईसी-72054एक्स) मोरे चेतन अण्णासाहेब, एसी  
 (आईसी-72055ए) प्रदीप कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72056एच) कावेरीआप्पा सी एम, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72057एल) वरुण ढींगरा, इन्फैन्ट्री

- (आईसी-72058एन) कापुरे प्रसाद जीवन, इंटर  
 (आईसी-72059डब्ल्यू) राजकुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72060एल) सुनील कुमार पाण्डेय, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72061एन) करन थापर, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72062डब्ल्यू) क्षत्रिय गणेश सिंह हरीनाथसिंह, एएससी  
 (आईसी-72063वाई) मनीष कुमार पाण्डे, एओसी  
 (आईसी-72064एफ) आशुतोष पंत, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72066एम) विराज दिनेश चंद्रा, आर्टी  
 (आईसी-72067पी) समीर टौगरी, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72068एक्स) क्षितिज सलवान, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72069ए) अजित कुमार राऊत, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72070पी) दिनेश कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72071एक्स) प्रशांत प्रकाश, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72072ए) विजय चौधरी, एसी  
 (आईसी-72073एच) आलोक सिंह भंडारी, इंजीनियर्स  
 (आईसी-72074एल) हिमांशु शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (आईसी-72075एन) देशमुख निशांत गिरिश, आर्टी  
 (आईसी-72076डब्ल्यू) प्रदीप एम पी, मैक  
 (आईसी-72077वाई) गौरव त्रिपाठी, एएडी

नीलेश चौधरी  
 लेफ्टि कर्नल  
 एएमएस-8बी

-----  
 (सेना शाखा)

सं. 388, दिनांक 22 जून 2010--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थाई आयोग

निम्नलिखित 43 (तैतालिस) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि, 108 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) और 17ए विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) और यू (प्रदर्शित यू ई एस) उपसर्ग लगे हुए हैं, को 12 दिसम्बर 2009 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग

अनुदान किया जाता है। उन्हें 12 दिसम्बर 2007 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को दो वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है :-

- आईएमए संख्या, नाम, आईसी संख्या एवं आर्म्स/सर्विस  
 (टी/6615) इकबालजीत सिंह, (72151पी), इंजीनियर्स  
 (टी/6621) प्रणय दीप, (72152एक्स), ईएमई  
 (टी/6605) अभिमन्यु स्मयाल, (72153ए), इंजीनियर्स  
 (टी/6622) श्रीनिवास एन के, (72154एच), ईएमई  
 (टी/6616) रूपिन्द्र सिंह भामरा, (72156एन), सिग्नल्स  
 (टी/6619) प्रदीप सिंह, (72157डब्ल्यू), सिग्नल्स  
 (टी/6614) प्रवीन कुमार, (72158वाई), ईएमई  
 (टी/6626) अभिमन्यु राठी, (72159एफ), इंजीनियर्स  
 (टी/6617) विक्रम बलहारा, (72160डब्ल्यू), सिग्नल्स  
 (टी/6587) जय शंकर मित्रा, (72161वाई), इंजीनियर्स  
 (टी/6628) इनोक डनीयल ग्वानाव्तीयू, (72162एफ), इंजीनियर्स  
 (टी/6604) एस राजा दुराई, (72163के), सिग्नल्स  
 (टी/6613) गुरसिमरन दीप सिंह, (72164एम), इंजीनियर्स  
 (टी/6618) गणेश बहादुर क्षेत्री, (72165पी), इन्फैन्ट्री  
 (यू/922) ललित किशोर चहाली, (72166एक्स), इंजीनियर्स  
 (टी/6606) चेतन नन्दा, (72167ए), ईएमई  
 (यू/915) गौरव कुमार, (72168एच), ईएमई  
 (टी/6599) नवीन शर्मा, (72169एल), इंजीनियर्स  
 (टी/6610) राहुल तोमर, (72171एच), सिग्नल्स  
 (टी/6630) ई यातिपलौंग योंगनी, (72172एल), इंजीनियर्स  
 (टी/6609) शिवेन्द्र सिंह अत्री, (72173एन), इंजीनियर्स  
 (यू/759) पीयूष शर्मा, (72174डब्ल्यू), ईएमई  
 (यू/909) सुशील सिंह, (72175वाई), ईएमई  
 (यू/883) अर्निबान बासु, (72176एफ), इंजीनियर्स  
 (टी/6603) रंजीत के आर, (72177के), इंजीनियर्स  
 (टी/6631) अमित आर्य, (72178एम), इंजीनियर्स  
 (यू/908) कृष्णा प्रसाद, (72179पी), इंजीनियर्स  
 (यू/894) सुनिल भक्त, (72180के), सिग्नल्स

- (टी/6629) अमर कुमार, (72181एम), ईएमई  
 (टी/6623) आलोक अवस्थी, (72182पी), सिग्नल्स  
 (टी/6624) पवन के बी, (72184ए), ईएमई  
 (यू/940) भूपेन्द्र चरक (72185एच), सिग्नल्स  
 (यू/876) गोविन्द एस, (72186एल), सिग्नल्स  
 (टी/6594) राजेश सेमवाल, (72187एन), ईएमई  
 (टी/6595) आदित्य कुमार भनोट, (72188डब्ल्यू), इंजीनियर्स  
 (यू/859) राम सी, (72189वाई), इंजीनियर्स  
 (टी/6627) जी योगेन्द्र कुमार रेड्डी, (72191डब्ल्यू), ईएमई  
 (यू/913) कृष्ण कुमार, (72193एफ), सिग्नल्स  
 (टी/6620) हरमिन्दर सिंह, (72194के), सिग्नल्स  
 (यू/874) नवीन कुमार मिश्रा, (72195एन), इंजीनियर्स  
 (टी/6632) जीवनदीप सिंह त्रेहन, (72196पी), इंजीनियर्स  
 (यू/906) भानु शर्मा, (72197एक्स), इंजीनियर्स  
 (यू/893) ऋषि राज तिवारी, (72198ए), ईएमई

निम्नलिखित 02 (दो) कैडेट को भी सेना अनुदेश 105/61 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत से लेफ्टिनेंट के पद पर 12 दिसम्बर 2009 (पूर्वाह्न) से स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है :—

- (टी/6600) अय्यर मनोज बालाकृष्णन, (72155एल), आईसी  
 (टी/6612) राधा कृष्ण, (72170ए), आईसी

#### अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित 16 (सोलह) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि, 107 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) और 17 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो कि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

आईएमए संख्या, नाम, एसएस संख्या, आर्म्स/सर्विस एवं अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

#### 107 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम

- (टी/6587) जय शंकर मित्रा, (43510पी), ईएमई, 16 जुलाई 2008  
 (टी/6594) राजेश सेमवाल, (43517वाई), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008  
 (टी/6595) आदित्य कुमार भनोट, (43518एफ), ईएमई, 16 जुलाई 2008

#### 17 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम

- (यू/859) राम सी, (43532एन), ईएमई, 01 जुलाई 2007  
 (यू/874) नवीन कुमार मिश्रा, (43547डब्ल्यू), ईएमई, 06 अगस्त 2007  
 (यू/876) गोविन्द एस, (43549एफ), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008  
 (यू/883) अर्निबान बासु (43556एक्स), इंजीनियर्स, 01 जुलाई 2007  
 (यू/893) ऋषि राज तिवारी, (43566एफ), ईएमई, 16 जुलाई 2008  
 (यू/894) सुनिल भक्त, (43567के), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008  
 (यू/906) भानु शर्मा, (43579वाई), ईएमई, 03 जुलाई 2007  
 (यू/908) कृष्णा प्रसाद, (43581डब्ल्यू), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2008  
 (यू/909) सुशील सिंह (43582वाई), ईएमई, 01 अगस्त 2007  
 (यू/913) कृष्ण कुमार, (43586पी), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2008  
 (यू/915) गौरव कुमार, (43588ए), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008  
 (यू/922) ललित किशोर चहाली, (43595डब्ल्यू), ईएमई, 16 जुलाई 2008  
 (यू/940) भूपेन्द्र चरक, (43613एन), ईएमई, 01 जुलाई 2007  
 जैण्टलमैन कैडेट्स को दिए गए आर्म्स/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

निम्नलिखित 26 (छब्बीस) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि, 108 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो कि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

आईएमए संख्या, नाम, एसएस संख्या, आर्म्स/सर्विस एवं अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

#### 108 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम

- (टी/6599) नवीन शर्मा, (43797एक्स), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009  
 (टी/6603) रंजीत के आर (43800एम), ईएमई, 14 जनवरी 2009  
 (टी/6604) एस राजा दुराई (43801पी), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009  
 (टी/6605) अभिमन्यु स्मयाल, (43802एक्स), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009  
 (टी/6606) चेतन नन्दा, (43803ए), इंजीनियर्स, 14 जनवरी 2009

(टी/6609) शिवेन्द्र सिंह अत्री, (43806एन), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009

(टी/6610) राहुल तोमर, (43807डब्ल्यू), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009

(टी/6613) गुरसिमरन दीप सिंह, (43808वाई), इंजीनियर्स, 14 जनवरी 2009

(टी/6614) प्रवीन कुमार, (43809एफ), ईएमई, 14 जनवरी 2009

(टी/6615) इकबालजीत सिंह, (43810डब्ल्यू), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009

(टी/6616) रूपीन्द्र सिंह भामरा, (43811वाई), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009

(टी/6617) विक्रम बलहारा, (43812एफ), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009

(टी/6618) गणेश बहादुर क्षेत्री, (43813के), ईएमई, 14 जनवरी 2009

(टी/6619) प्रदीप सिंह, (43814एम), इंजीनियर्स, 14 जनवरी 2009

(टी/6620) हरमिन्दर सिंह, (43815पी), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009

(टी/6621) प्रणय दीप, (43816एक्स), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009

(टी/6622) श्रीनिवास एन के, (43817ए), इंजीनियर्स, 14 जनवरी 2009

(टी/6623) आलोक अवस्थी, (43818एच), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009

(टी/6624) पवन के वी, (43819एल), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009

(टी/6626) अभिमन्यु राठी, (43821एच), ईएमई, 19 जनवरी 2009

(टी/6627) जी योगेन्द्र कुमार रेड्डी, (43822एल), इंजीनियर्स, 28 जनवरी 2009

(टी/6628) इनोक डनीयल ग्वानाक्लीयू, (43823एन), सिग्नल्स, 02 फरवरी 2009

(टी/6629) अमर कुमार (43824डब्ल्यू), सिग्नल्स, 11 फरवरी 2009

(टी/6630) ई यातिपलौंग योंगनी, (43825वाई), ईएमई, 11 फरवरी 2009

(टी/6631) अमित आर्य, (43826एफ), ईएमई, 24 फरवरी 2009

(टी/6632) जीवनदीप सिंह त्रेहन, (43827के), सिग्नल्स, 24 फरवरी 2009

जैण्टलमैन कैडेट्स को दिए गए आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

निम्नलिखित जैण्टलमैन कैडेट जो कि, 16 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो कि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

(आई एम ए संख्या) नाम, एस एस संख्या, आर्म/सर्विस एवं अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

(यू/759) पीयूष शर्मा, (43091एच), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007

जैण्टलमैन कैडेट को दिए गए आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

(अल्प सेवा आयोग)

ले के पद पर

निम्नलिखित 19 महिला अधिकारियों ने अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) का छः मास का समय जो कि दिनांक 19 सितम्बर 2009 से आरंभ हुआ था, पूरा कर लिया है। उनको उसी तिथि दिनांक 19 सितम्बर 2009 से सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) ले के पद पर 10 वर्ष के लिए अल्प सेवा आयोग प्रदान किया जाता है :-

(डब्ल्यू एस नं.) नाम, आर्म/सर्विस

(एसएस-43617के) शुचि दुर्गापाल, एविएशन

(एसएस-43619पी) मोरे प्रणिता जयसिंग, एएडी

(एसएस-43621एम) श्रुति नायर, एससी

(एसएस-43627एन) इन्बीर कौर, इन्ट

(एसएस-43628डब्ल्यू) अनिता कुमारी, एससी

(एसएस-43637एक्स) कल्पना बोहरा, एससी

(एसएस-43647एफ) पल्लवी शर्मा, ईएमई

(एसएस-43651के) नेहा चोपड़ा, एससी

(एसएस-43674एल) पूजा यादव, एससी

(एसएस-43689एन) उमा यादव, इन्ट

(एसएस-43691एल) प्रतिक्षा राणा, इन्ट

(एसएस-43700एफ) दीपशिखा राणा, एविएशन

(एसएस-43703पी) कविता, एससी

(एसएस-43724एल) शिवानी परमार, एससी

(एसएस-43727वाई) कंचन जोशी, एससी

(एसएस-43746के) कमलेश कुमारी, एससी

(एसएस-43748पी) कोनिका सिन्हा, ईएमई

(एसएस-43767ए) रुबीना कौर कौर इन्

(एसएस-43772एल) छवि शर्मा, एससर्सा

निम्नलिखित 10 महिला अधिकारियों को जो एस एस सी डब्ल्यू (टेक)-02 पाठ्यक्रम की हैं, को सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) ले के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 19 सितम्बर 2009 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 22 सितम्बर 2007 से सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9 दिनांक 01 जून 1996) के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रोन्नति के लिए दी जाती है :-

(एसएस नं.) नाम, आर्म/सर्विस

(एसएस-43781एम) हरजोत कौर, ईएमई

(एसएस-43783एक्स) रूप कुंवर निरवन, ईएमई

(एसएस-43784ए) मनाली श्रीवास्तव, सिग्नल

(एसएस-43785एच) स्मृति झा, सिग्नल

(एसएस-43786एल) श्रुतिका दत्ता, ईएमई

(एसएस-43787एन) लोहारेकर गिरिजा लक्ष्मीकांत, सिग्नल

(एसएस-43789वाई) गैजल स्तुती सरीन, ईएमई

(एसएस-43792वाई) बुशरा जाईरी, ईएमई

(एसएस-43793एफ) पार्वी प्रज्ञा जयवंत, ईएमई

(एसएस-43794के) आर संध्या, सिग्नल

राहुल शर्मा

ले कर्नल

सहायक सेना सचिव-8बी

सेना शाखा

सं. 389, दिनांक 22 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष यथासंशोधित थल सेना के अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सर्जन सब लेफ्टि के पद पर (परख पर)

अनिता एम (एमआर-08832डब्ल्यू), एएमसी, 05 मार्च 2009

अभीश मोहन (एमआर-08847वाई), एएमसी, 05 मार्च 2009

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

वायु सेना मुख्यालय

सं. 390, दिनांक 22 जून 2010--सक्षम प्राधिकारी सहर्ष, निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली, 2001 के नियम 7(8) के अधीन स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (ग्रुप 'ख' राजपत्रित, वेतनबंध-2, रुपए 9,300--34,800+4,800/- ग्रेड वेतन), के पद पर उनके नाम के आगे अंकित अवधि के लिए अथवा सेवानिवृत्त होने तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक में से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :-

नाम, (पदोन्नति की तिथि--कब से/कब तक)

सर्व श्री/श्रीमती

संजय नन्दी, 27 नवम्बर 2009/26 मई 2010

जी के वरुण, 27 नवम्बर 2009/26 मई 2010

आर एस कैम, 27 नवम्बर 2009/26 मई 2010

एस एम मदान, 27 नवम्बर 2009/26 मई 2010

सुभाष चन्दर, 31 दिसम्बर 2009/26 मई 2010

ओ एन शर्मा, 31 दिसम्बर 2009/26 मई 2010

सी एल धमीजा, 31 दिसम्बर 2009/26 मई 2010

सुरेश कुमार दीवान, 08 फरवरी 2010/26 मई 2010

स्नेहलता तुली, 08 फरवरी 2010/26 मई 2010

2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर यह बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

ए के लारोइया

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 391, दिनांक 23 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से 15,600--39,100/- (पे बैंड-3) + 6,600/- (ग्रेड पे) रुपए के वेतनमान में एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' (ग्रुप 'ए') के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

(पिन संख्या) नाम, स्थापना/प्रयोगशाला, नियुक्ति की तिथि

(2009 एसी1031) डा. सुश्री प्रीतम सांगवान, सी एफ ई ई एस, दिल्ली, 23 सितम्बर 2009

(2009 एसी1047) डा. थोमस एन अब्राहम, डी एल, जोधपुर, 13 अप्रैल 2009

(2009 एसी1026) डा. रवीन्द्र सिंह, डी एल, जोधपुर, 29 सितम्बर 2009

(2009 एसी1032) डा. सुश्री शिबे वरगिस के, डी एफ आर एल, मैसूर, 25 नवम्बर 2009

(2009एसी1018) डा. सुमई कांत जोशी, डी आई बी ई आर, हल्द्वानी, 09 सितम्बर 2009

(2009एसी1015) डा. सेपत नवल किशोर, डी आई एच ए आर, लेह, 16 सितम्बर 2009

(2008एसी1037) डा. सुश्री सुभा शुक्ला, डिपास, दिल्ली, 30 दिसम्बर 2008

(2009एसी1036) डा. सुश्री पंकज खुराना, डिपास दिल्ली, 11 नवम्बर 2009

(2009एसी1019) डा. सुरेश कुमार, डी आई पी आर, दिल्ली, 24 अगस्त 2009

(2009एसी1014) डा. मो. इमरान खान, डी आई पी आर, दिल्ली, 07 सितम्बर 2009

(2009एसी1012) डा. अनुराग पांडे, डी आर एल, तेजपुर, 31 अगस्त 2009

(2009एसी1013) डा. गौरव अग्निहोत्री, डी आर एल, तेजपुर, 14 सितम्बर 2009

(2009एसी1017) डा. कुलभूषण शर्मा, डी आर डी ई, ग्वालियर, 09 सितम्बर 2009

(2009एसी1043) डा. सुश्री आरती पंत, एच ई एम आर एल, पूणे, 18 नवम्बर 2009

(2009एसी1003) डा. योगेश कुमार वर्मा, इनमास, दिल्ली, 21 अगस्त 2009

(2009एसी1038) डा. योगेश चंद नागर, एस ए एस ई, मनाली, 15 सितम्बर 2009

(2009एसी1041) मेजर (सेवानिवृत्त) सुबीश एन एस, स्पीक, दिल्ली, 11 मई 2009

(2009एसी1030) डा. सुश्री प्रीती वर्मा, एस एस पी एल, दिल्ली, 24 सितम्बर 2009

(2009एसी1029) डा. सुश्री अनुभा जैन, एस एस पी एल, दिल्ली, 01 अक्टूबर 2009

(2008एसी1030) डा. के जगदेश्वर रेड्डी, एस एस पी एल, दिल्ली, 23 जुलाई 2008

(2009एसी1042) डा. ई प्रोपाथम, वी आर डी ई, अहमदनगर, 17 सितम्बर 2009

दिनांक 04 अगस्त 2009 के डी जी एन संख्या डीओपी/08/86708/डीजीएन/वैज्ञानिक-सी के क्रम संख्या 4 में दर्शाए गए डा. के जगदेश्वर रेड्डी (उपयुक्त क्रम संख्या 20) से संबंधित प्रविष्टि हटाई गई समझी जाए।

नरसिंह साहु  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

## थल सेना विभाग

सं. 392, दिनांक 23 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ए डी कोर अधिकारियों को दिनांक 25.08.2009 से अल्पस्थायी कमीशन से मुक्त करते हैं तथा उसी तिथि से ही ए डी कोर में थल सेना अनुदेश 37/78 के अधीन स्थाई कमीशन में नियुक्त करते हैं :--

## नियमित सेना

### सेना दन्त चिकित्सा कोर

#### स्थायी कमीशन

अल्पकालीन कमीशन से स्थाई कमीशन में

#### मेजर के पद पर

मेजर अभीजीत अशोक काडू (डीआर-10632वाई), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 05 जून 2003 से दी जाती है।

#### कैप्टन के पद पर

कैप्टन कमल वर्मा (डीआर-10633एफ), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 07 अप्रैल 2005 से दी जाती है।

कैप्टन सीरत रहमान (डीआर-10634के), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 18 मई 2005 से दी जाती है।

कैप्टन रीनेश एम (डीआर-10635एम), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 25 मई 2005 से दी जाती है।

कैप्टन हर्षवर्धन बी (डीआर-10636पी), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 25 मई 2005 से दी जाती है।

कैप्टन कुमार सुंदरम आर (डीआर-10637एक्स), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 26 मई 2005 से दी जाती है।

कैप्टन नरेन्द्र सिंह (डीआर-10638ए), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है।

कैप्टन मधुल सिंहल (डीआर-10639एच), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 21 जुलाई 2005 से दी जाती है।

कैप्टन ध्रुव दूबे (डीआर-10640एक्स), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 10 नवम्बर 2005 से दी जाती है। जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कैप्टन सुदर्शन वी एस भट्ट (डीआर-10641ए), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 10 मार्च 2006 से दी जाती है।

कैप्टन थिरुवल्लुवन एन (डीआर-10642एच), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 11 मार्च 2006 से दी जाती है।

कैप्टन राजशेखर डी गेड्डिड (डीआर-10643एल), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 21 मार्च 2006 से दी जाती है।

कैप्टन (सुश्री) पुष्पा कुमारी (डीआर-10644एन), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 23 जून 2006 से दी जाती है।

कैप्टन अमिह थापा (डीआर-10645डब्ल्यू), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है।

कैप्टन ए नवीन कुमार (डीआर-10646वाई), 25 अगस्त 2009, परन्तु वेतन, पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 21 मार्च 2007 से दी जाती है।

महेश चन्द्र  
मेजर जनरल  
ए डी जी डी एस

#### थल सेना विभाग

सं. 393, दिनांक 23 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं :--

#### नियमित सेना

#### रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार मेजर जोगिन्दर सिंह (जेसी-220798एक्स), पहले जैक राईफलस, 25 अप्रैल 2009

सूबेदार मेजर के कुमारसन (जेसी-210328वाई), पहले एमईजी, 30 अप्रैल 2009

सूबेदार (जी डी) के रैंक में

सूबेदार बस राम जाट (जेसी-264475पी), पहले आर्टी रेजीमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

सूबेदार मोहम्मद ईब्राहीम (जेसी-592164डब्ल्यू), पहले जैक लाई, 25 अप्रैल 2009

सूबेदार एन कनकराज (जेसी-371324एन), पहले सिग्नल, 25 अप्रैल 2009

सूबेदार तिलक बहादुर जी सी (जेसी-629544पी), पहले 9 जी आर, 25 अप्रैल 2009

सूबेदार सुरेश कुमार ए (जेसी-297976पी), पहले एएडी, 13 जुलाई 2009

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार हरजित सिंह (जेसी-428633एक्स), पहले पंजाब रेजीमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार कल्याण सिंह (जेसी-539358एक्स), पहले कुमाऊँ रेजीमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार तरलोचन सिंह (जेसी-429868डब्ल्यू), पहले पंजाब रेजीमेन्ट, 14 जुलाई 2009

प्रदीप कुमार  
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग  
(रक्षा अनु. तथा वि. संगठन)

सं. 394, दिनांक 23 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :--

कार्यकारी लेफ्टिनेंट कर्नल से स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल  
(आईसी-40423) लेफ्टिनेंट कर्नल आर एस वर्मा, ईएमई, 12 जून 1998

एन मारियप्पन  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)  
कृते महानिदेशक अनुसंधान एवं विकास

#### थल सेना शाखा

सं. 395, दिनांक 24 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

#### नियमित सेना

#### स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

ले कर्नल/कर्नल (टीएस और समकक्ष) से  
कर्नल (चयन और समकक्ष) के पद पर

एस एन तिवारी (एनटीआर-16589वाई), 01 नवम्बर 2009, वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मई 2009 से दी जाती है।

एस एस मोर (एनटीआर-16547एम), 01 फरवरी 2010, वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है।

विंग कमांडर/ग्रुप कैप्टन (टीएस व समकक्ष) से ग्रुप कैप्टन  
(चयन व समकक्ष) के पद पर

एम एस श्रीधर (एमआर-05526डब्ल्यू) (एएफ-18696), 12 अगस्त 2009, वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2009 से दी जाती है।

जलदीर सिंह (एमआर-07142ए) (एएफ-19370), 14 सितम्बर 2009, वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है।

जी एस सेठी (एमआर-05810एम) (एएफ-19368), 03 नवम्बर 2009, वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है।

टी रॉय (एमआर-05659एम) (एएफ-19332), 12 अक्टूबर 2009, वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19 सितम्बर 2009 से दी जाती है।

एस शर्मा (एमआर-06496डब्ल्यू) (एएफ-19320), 01 नवम्बर 2009, वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 24 सितम्बर 2009 से दी जाती है।

## मेजर से ले कर्नल के पद पर

- ए टी अटल (एमआर-06875एम), एएमसी, 08 जनवरी 2008  
 अमित राय (एमआर-07108ए), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 सुबीर डे (एमआर-07111ए), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 राजेश उद्दनदम (एमआर-07116वाई), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 जे एस रंधावा (एमआर-07117एफ), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 सूरज गुप्ता (एमआर-06972के), एएमसी, 06 जनवरी 2009  
 एस के नन्दा (एमआर-06974पी), एएमसी, 06 जनवरी 2009  
 महिमा लाल (एमआर-07070एफ), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 अरुन हेगड़े (एमआर-07078एन), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 सुधीन कुरियन (एमआर-07023के), एएमसी, 30 जून 2009  
 मनोज कुमार सिंह (एमआर-08471एच), एएमसी, 09 जनवरी 2010  
 राजी के (एमआर-07076एच), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 रीमा कुमार (एमआर-07073पी), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 अनुराग खेरा (एमआर-07080एल), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 मनोज गोपीनाथ (एमआर-07071के), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 प्रान्ती स्वैन (एमआर-07085एन), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 ए सी निशील (एमआर-07121के), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 रमा गुप्ता (एमआर-07122एम), एएमसी, 21 जनवरी 2010  
 विवाल वितुल मोहन (एमआर-08086एल), एएमसी, 22 जनवरी 2010  
 अजय सेबास्टीयन करवैल्हो (एमआर-07818एक्स), एएमसी, 27 जनवरी 2010  
 आशीश बहल (एमआर-07083वाई), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 शिजीथ के पी (एमआर-07084एफ), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 शिखर गौर (एमआर-07998एल), एएमसी, 22 जनवरी 2010  
 निरुपम राय (एमआर-07817पी), एएमसी, 30 जनवरी 2010  
 दीपक द्विवेदी (एमआर-07820पी), एएमसी, 01 फरवरी 2010  
 अरिन्दम मुखर्जी (एमआर-07086एम), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 अर्चना अपूर्व (एमआर-07089ए), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 बी चेकुनाथ (एमआर-07094एल), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 बी वासुदेवन (एमआर-07096डब्ल्यू), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
 स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमाण्डर के पद पर  
 यशवीर सिंह दहिया (एमआर-07835एक्स) (एएफ-25551एफ), एएमसी, 15 जनवरी 2010

पल्लवी गोस्वामी (एमआर-08443डब्ल्यू) (एएफ-26498एफ), एएमसी, 21 जनवरी 2010

सर्जन लेफ्टिनेंट कमाण्डर से सर्जन कमाण्डर के पद पर  
 मनील पटेल (एमआर-07819ए) (75659), एएमसी, 06 फरवरी 2010

## मेजर के पद पर

राकेश कुमार गौतम (एमएस-15393वाई) (एमआर-08937ए), एएमसी, 22 सितम्बर 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16.05.2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

## सर्जन लेफ्टिनेंट कमाण्डर के पद पर

के आनंथ किनि (एमएस-14393एम/75796एन) (एमआर-08616एच), एएमसी, 18 अगस्त 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11.11.2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

## सर्जन लेफ्टिनेंट से सर्जन लेफ्टिनेंट कमाण्डर के पद पर

अमीत कुमार अग्रवाल (एमआर-08760एक्स) (75904एच), एएमसी, 16 दिसम्बर 2009

सोमनाथ पान (एमआर-08132एच) (75868ए), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

सिरत पाल (एमआर-08160पी) (75870एफ), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

अभिषेक कुमार शर्मा (एमआर-08183डब्ल्यू) (75873एन), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

## फ्लाईट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

पंकज राय (एमआर-08065एच) (एएफ-27647एस), एएमसी, 30 दिसम्बर 2008

## फ्लाईट लेफ्टि के पद पर

प्रशान्त प्रतीम पाधी (एमआर-08705) (एएफ-30044के), एएमसी, 19 अगस्त 2009

## कप्तान के पद पर

शैलेश मोगरा (एमएस-14932एक्स) (एमआर-08934एम), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

## इन्टर्नशिप पूरी होने के पश्चात

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12.05.2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

## सेना शाखा

सं. 396, दिनांक 24 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आईसी सं., नाम, आर्म, मेजर दिनांक से

63450 उज्जवलदीप सिंह सूर, आर्टी, 13 दिसम्बर 2009

63475 अनिल कुमार यादव, आर्टी, 13 दिसम्बर 2009

65286 राजेश कुमार, इन्फैन्ट्री, 03 नवम्बर 2008

65431 जी सी चक्रधर, आर्टी, 01 मई 2008

65472 हरविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2009

65476 अभिशेक मिश्रा, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2009

65478 प्रवीन कुमार दुबे, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2009

65485 अवनीत सिंह मेहता, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मई 2009

66042 जिजु वर्घीस, ईएमई, 20 अप्रैल 2008

अल्पकालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यूएसईएस) ले से कप्तान

डब्ल्यूएस सं., नाम, आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि, कप्तान दिनांक से

00600 रिशमा सरिन, एएससी, 01 सितम्बर 2001, डब्ल्यूएसईएस (ओ)-18 (एनटी), 01 सितम्बर 2002, 16 दिसम्बर 2004

जसवन्त सिंह  
संयुक्त निदेशक  
एमएस-8सी

## थल सेना विभाग

सं. 397, दिनांक 24 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार गुरपाल सिंह (जेसी-428182एच), 01 फरवरी 2010

सूबेदार के कुमारेसन (जेसी-210328वाई), 01 फरवरी 2010

सूबेदार एस नाडाराजन (जेसी-840477वाई), 01 फरवरी 2010

सूबेदार राजा के (जेसी-235532एच), 01 मार्च 2010

सूबेदार दुनी चन्द (जेसी-840518एक्स), 01 मार्च 2010

## स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार विरेन्द्र कुमार सिन्हा (जेसी-750574पी), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार नन बहादुर (जेसी-841406के), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-841424एम), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-578263एन), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार जोग राज कपूर (जेसी-428325एक्स), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार विश्वनाथ मैती (जेसी-661770ए), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार चोक बहादुर (जेसी-578162ए), 01 मार्च 2010

## नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार फुलाल सिंह (सं. 3974328पी अब जेसी-842658एच), 10 मार्च 2010\*

हवलदार आर मनोहरन (सं. 10357824एक्स अब जेसी-842674ए), 06 फरवरी 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009)

हवलदार प्रेम चन्द (सं. 10478849एम अब जेसी-842698के), 18 फरवरी 2010\*\*

हवलदार अजित राज (सं. 10361049एच अब जेसी-842706एक्स), 04 मार्च 2010\*\*

\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010)

हवलदार जरम सिंह (सं. 10360685के अब जेसी-842713एन), 02 मार्च 2010\*\*\*

हवलदार नर बीडीआर थापा (सं. 5040602एल अब जेसी-842717के), 23 फरवरी 2010\*\*\*

हवलदार राम दुलारे तिवारी (सं. 14340615एच अब जेसी-842720के), 01 फरवरी 2010\*\*\*

हवलदार जय भगवान (सं. 1053136एफ अब जेसी-842722पी), 19 फरवरी 2010\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010)

हवलदार बाबु सिंह शेखावत (सं. 2870159डब्ल्यू अब जेसी-842725एच), 04 मार्च 2010\*\*\*\*

\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010)

हवलदार रणबीर सिंह (सं. 5844669एच अब जेसी-842726एल),  
01 मार्च 2010\*\*\*\*

हवलदार चंचल सिंह (सं. 10361066एच अब जेसी-842727एन),  
02 मार्च 2010\*\*\*\*

हवलदार बाल गोविन्द कुर्मी (सं. 10388967वाई अब जेसी-  
842728डब्ल्यू), 02 मार्च 2010\*\*\*\*

हवलदार प्रकाश छेत्री (सं. 5841862के अब जेसी-842731डब्ल्यू),  
01 मार्च 2010\*\*\*\*

हवलदार काली चरण (सं. 10435802एन अब जेसी-842733एफ),  
01 मार्च 2010\*\*\*\*

हवलदार कृष्णा कुमार (सं. 10478779वाई अब जेसी-842734के),  
01 मार्च 2010\*\*\*\*

हवलदार राधा कृष्णन पिल्ले (सं. 10358328एच अब जेसी-  
842735एम), 01 मार्च 2010\*\*\*\*

हवलदार शंकर सिंह (सं. 14460044एल अब जेसी-842737एक्स),  
04 मार्च 2010\*\*\*\*

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 4457626एच अब जेसी-842738ए),  
01 मार्च 2010\*\*\*\*

हवलदार येम. बहादुर गुरूंग (सं. 1402862एफ अब जेसी-  
842739एच), 01 मार्च 2010\*\*\*\*

हवलदार तुलसी राम सिंह तोमर (सं. 2971311ए अब  
जेसी-842740एक्स), 03 मार्च 2010\*\*\*\*

\*\*\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010)

प्रदीप कुमार  
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

सं. 398, दिनांक 24 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
पदोन्नतियां करते हैं:--

सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-759104के), 15 जनवरी 2010/  
01 जनवरी 2010\*

सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

नायब सूबेदार आनन्द राम (जेसी-758904एक्स), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार पी सेकर (जेसी-758905ए), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार श्री क्रिशन शर्मा (जेसी-758906एच), 01 फरवरी  
2010

नायब सूबेदार बिजेन्द्र कुमार (जेसी-758908एन), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार ओमबीर (जेसी-758909डब्ल्यू), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार रविन्द्रन एन (जेसी-758910एल), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-758911एन), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार महादिक कालिदास क्रिष्णा (जेसी-758912डब्ल्यू),  
01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-758913वाई), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार हिरावे प्रकाश वसन्त (जेसी-759003एक्स), 01 फरवरी  
2010

नायब सूबेदार अनिल कुमार के (जेसी-758971एच), 01 फरवरी  
2010

सूबेदार एवीएन टेक (एफ) के रैंक में

नायब सूबेदार बंका राम (जेसी-762130एक्स), 01 फरवरी 2010

सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (ईईएन) के रैंक में

नायब सूबेदार के वी एम श्रीनिवासन राव (जेसी-758289एल),  
01 फरवरी 2010

सूबेदार मास्टर टेक (आईऔर पी) के रैंक में

नायब सूबेदार नागेन्द्र सिंह (जेसी-758565एच), 01 फरवरी 2010

सूबेदार वेल्डर के रैंक में

नायब सूबेदार बुधा राम (जेसी-760671ए), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार शशी कान्त पान्डेय (जेसी-760598एम), 01 फरवरी  
2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

नायब सूबेदार अभिमन्यु परिछा (जेसी-759374ए), 06 जनवरी  
2009/01 जनवरी 2010\*

नायब सूबेदार लालजी यादव (जेसी-759479के), 05 जनवरी  
2009/01 जनवरी 2010\*

नायब सूबेदार विजय नारायण चतुर्वेदी (जेसी-759480वाई),  
01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार एम डी अस्लम (जेसी-759481एफ), 01 फरवरी  
2010

नायब सूबेदार रमेश राज (जेसी-759485एक्स), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार राना प्रताप सिंह (जेसी-759486ए), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार राम करन यादव (जेसी-759580के), 01 फरवरी  
2010

## सूबेदार एसकेटी के रैंक में

नायब सूबेदार पदम सिंह सिरौही (जेसी-760902एल), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-760761एफ), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार मोहिम चन्द्र नाथ (जेसी-760762के), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार रामफाल (जेसी-760905वाई), 01 फरवरी 2010

## सूबेदार झाईवर (एमटी) के रैंक में

नायब सूबेदार योगेन्द्र सिंह (जेसी-760942एम), 23 जून 2009

## सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

नायब सूबेदार अरविन्द कुमार सिंह (जेसी-761304ए), 21 जनवरी 2010/23 जून 2009\*

## सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में

नायब सूबेदार विजय प्रसाद (जेसी-757904एल), 01 अगस्त 2008

## सूबेदार आर टी (पंडित) के रैंक में

नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-753875के), 08 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

## सूबेदार मास्टर टेक इलैक्ट के रैंक में

नायब सूबेदार गंगाधरन बी वी (जेसी-759171डब्ल्यू), 15 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार एमडी जसीम परवेज़ खान (जेसी-759023एल), 08 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

## सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

नायब सूबेदार लालन प्रसाद (जेसी-758916एम), 09 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार सुरेश एस (जेसी-758918एक्स), 08 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार दिनेश कुमार जोशी (जेसी-758919ए), 08 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार प्रभू राम मोसल पूरी (जेसी-759004ए), 10 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार ताहेर अली खान (जेसी-759006एल), 13 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार नरेन्द्र राऊत (जेसी-759009वाई), 11 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार सोहन लाल बिशनोई (जेसी-759010एन), 11 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-759030एफ), 18 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार मधू सुधन डोगरा (जेसी-759035ए), 15 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार केशव चन्द्र सेन (जेसी-759039डब्ल्यू), 15 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार संकर कुमार दास (जेसी-759047पी), 16 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

## सूबेदार मास्टर टेक आप्टो के रैंक में

नायब सूबेदार अग्रिश कुमार त्यागी (जेसी-758889एन), 08 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

## सूबेदार टेक (एसए) के रैंक में

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-760226एफ), 16 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

## सूबेदार मास्टर टेक (आईएनपी) के रैंक में

नायब सूबेदार राज सिंह (जेसी-758286एक्स), 06 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

## सूबेदार मास्टर टेक (एएफ) के रैंक में

नायब सूबेदार पवार अरुना सदाशिव (जेसी-759160के), 06 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

## सूबेदार मास्टर टेक (ईएलई) के रैंक में

नायब सूबेदार रघुनाथ जेना (जेसी-758448एक्स), 13 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार राम किशोर (जेसी-759233एल), 13 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

## सूबेदार मास्टर टेक (ईईएन) के रैंक में

नायब सूबेदार आकिरी श्रीनिवास राव (जेसी-758511एफ), 13 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार इन्द्रजीत सिंह (जेसी-759604एच), 13 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010\*

\*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।)

एन के कश्मीरा  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 399, दिनांक 25 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

## नियमित सेना

## क्वचित कोर

## स्थाई नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार लाल चन्द (सं. 1087780ए अब जेसी-244092एफ),  
22 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2009 से दी जाती है)

दफादार भवानी सिंह (सं. 1087902वाई अब जेसी-244094एम),  
22 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार दसप्पा पुजारी (सं. 1089072एम अब जेसी-243955एल),  
05 दिसम्बर 2009\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार राज कुमार (सं. 1089877के अब जेसी-243950एम),  
24 दिसम्बर 2009\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार अनील कुमार (सं. 1098586एल अब जेसी-243951पी),  
24 दिसम्बर 2009\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र सिंह (सं. 15461492ए अब जेसी-244018ए),  
07 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार कामेश्वर प्रजापती (सं. 15461370डब्ल्यू अब जेसी-  
244085एल), 28 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
18 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार रशपाल सिंह (सं. 1086376वाई अब जेसी-244043वाई),  
01 जनवरी 2010

दफादार रशपाल सिंह (सं. 1089035वाई अब जेसी-244047पी),  
01 जनवरी 2010

दफादार मुस्ताक अहमद अंसारी (सं. 1089077एल अब जेसी-  
244050पी), 22 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

5—174 GI/2010

दफादार सीबराम दाश (सं. 1089203एम अब जेसी-244042डब्ल्यू),  
05 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार संजय कुमार सिंह (सं. 1089922एल अब जेसी-244102ए),  
20 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार दीपक कुमार (सं. 1098966के अब जेसी-244075एफ),  
12 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार देश राज (सं. 1099758एफ अब जेसी-244031के),  
01 जनवरी 2010

दफादार अजाद सिंह (सं. 1099092एन अब जेसी-244111एफ),  
26 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
06 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार भगवान सिंह (सं. 15463134एन अब जेसी-244064पी),  
14 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार शिव चन्द (सं. 15463531एम अब जेसी-244066ए),  
14 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार अमरीत लाल (सं. 1088500एन अब जेसी-244010एन),  
19 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार विठल कुन्दारागी (सं. 15477924एन अब जेसी-  
244109के), 27 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
21 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार ओम प्रकाश (सं. 1087690वाई अब जेसी-244097ए),  
18 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार दलीप सिंह (सं. 1084170एच अब जेसी-244107वाई),  
19 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार ध्रुव सिंह (सं. 1089492एम अब जेसी-244104एल),  
18 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार पवन कुमार (सं. 15461942एम अब जेसी-244086एन),  
14 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार गुरदेव सिंह (सं. 15462598वाई अब जेसी-244062के),  
23 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार आनन्द सिंह महार (सं. 15462774एल अब जेसी-  
244087डब्ल्यू), 14 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार वेद प्रकाश (सं. 1099689डब्ल्यू अब जेसी-244115एक्स),  
01 फरवरी 2010

दफादार शाम सिंह (सं. 1088953वाई अब जेसी-244069एन),  
14 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार थोटा रमानीह (सं. 1099425पी अब जेसी-244080एम),  
14 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
05 अगस्त 2009 से दी जाती है)

दफादार खेडकर नीवरूती बलभीम (सं. 1099528एन अब  
जेसी-244081पी), 14 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार सतविन्द्र सिंह (सं. 1088723एल अब जेसी-244093के),  
16 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार नवीन कुमार भाटिया (सं. 15461161वाई अब  
जेसी-244082एक्स), 16 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार राज पाल (सं. 1088376एक्स अब जेसी-243962एफ),  
05 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार रीध करन जाट (सं. 1099004एम अब जेसी-244096एक्स),  
09 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार ढोला राम रावत (सं. 15461246पी अब जेसी-244083ए),  
14 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
06 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार उपेन्द्र चौधरी (सं. 15461266एच अब जेसी-244084एच),  
23 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार रामेश्वर प्रसाद जाट (सं. 1089395पी अब जेसी-  
244063एम), 07 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार इन्दराज सिंह गुर्जर (सं. 1098853एफ अब जेसी-  
243918एक्स), 01 जनवरी 2010

दफादार विनोद कुमार (सं. 1099323वाई अब जेसी-244106डब्ल्यू),  
09 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार देश राज (सं. 15461140एच अब जेसी-244089एफ),  
14 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार सुभाष कुमार (सं. 15461280पी अब जेसी-244088वाई),  
14 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार राम मुरत सिंह यादव (सं. 15461363ए अब जेसी-244090डब्ल्यू), 14 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार खिव सिंह नरूका (सं. 15461406के अब जेसी-244091वाई), 14 जनवरी 2010\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

जे रॉय चौधरी  
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 400, दिनांक 25 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नतियाँ करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी शाखा

एयर वाइस मार्शल के मूल रैंक में

(ए वी एम) ए के सिंह (14616), वै ई (वै)

(ए वी एम) पी कनकराज (15066), वै ई (या)

(ए वी एम) एस सी लूथरा (15105), वै ई (वै)

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)

वायु सेना

सं. 401, दिनांक 25 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित मूल पदोन्नतियाँ करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के मूल रूप पर

प्रशासनिक शाखा

डी एन पाण्डेय (23916), 20 जनवरी 2009 से प्रभावी।

एन विजय कुमार

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक

कार्मिक अफसर-3(डी)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 402, दिनांक 25 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी हुई तिथि (पूर्वाह्न) से दर्शाए गए वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड में पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नाम, प्रयोगशाला/स्थापना, वर्तमान ग्रेड, पदोन्नत ग्रेड, पदोन्नत ग्रेड का पे बैंड और ग्रेड पे (रूपए), पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि

देवेन्द्र पाल सिंह, एडीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

देवेन्द्र सिंह (अनु.जा.), एडीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

एम एस मीना (अनु.ज.जा.), एडीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/-, 01 सितम्बर 2009

पी के गुप्ता, एडीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/-, 01 सितम्बर 2009

उदय वीर सिंह (अनु.जा.), एडीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/-, 01 सितम्बर 2009

राजेश कुमार, एडीआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) + 4,800/-, 01 सितम्बर 2009

नौशाद अहमद, एडीआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800), + 4,800/-, 01 सितम्बर 2009

टी नरेश सिंह, अनुराग, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) + 4,800/-, 01 सितम्बर 2009

आर जगन्नाथन, सीएबीएस, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

शोभा वासुदेवा, सीसीई (नार्थ), तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (15,600--39,100) + 7,600/-, 01 सितम्बर 2009

एम मुत्थूकुमारन, सीसीई (नार्थ), तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

राजीव कुमार, सीसीई (नार्थ), वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) + 4,800/-, 01 सितम्बर 2009

जीवीएमएमजे नागराजू, सीसीई (नार्थ), वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) + 4,800/-, 01 सितम्बर 2009

आर महेन्द्र, सीसीई (साउथ), वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) + 4,800/-, 01 सितम्बर 2009

वी के गिरहोत्रा, देसीडाक, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (15,600--39,100) + 7,600/-, 01 सितम्बर 2009

ए के सिंह, देसीडाक, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

राजपाल सिंह (अनु.जा.), देसीडाक, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/-, 01 सितम्बर 2009

राकेश कुमार, देसीडाक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) + 4,800/-, 03 सितम्बर 2009

आई पी पाल, डीएमएसआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

प्रतीप भट्टाचार्य, डीएमएसआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

ए एच अन्सारी, डीएमएसआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

भानु प्रकाश (अनु.जा.), डीएमएसआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/-, 02 सितम्बर 2009

सुधाकर गुप्ता, डीएमएसआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/-, 01 सितम्बर 2009

जी डी घयानी, डीएमएसआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/-, 01 सितम्बर 2009

राम सिंह, डीएमएसआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/-, 01 सितम्बर 2009

चन्द्रशेखर (अनु.जा.), डीएमएसआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) + 4,800/-, 01 सितम्बर 2009

एस के अग्रवाल, डीएमएसआरडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) + 4,800/-, 01 सितम्बर 2009

राकेश कुमार यादव, डीएमएसआरडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) + 4,800/- 01 सितम्बर 2009

एम जगन मोहन राव, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (15,600--39,100) + 7,600/-, 01 सितम्बर 2009

एन वेंकटेश्वरलू, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

एस सेलवा राज, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

आई श्रीनिवास राव, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

एम रामा कृष्णा, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/- 01 सितम्बर 2009

कोटा वीराइह (अनु.जा.), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

तरुण कुमार दी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

जी एल वाराप्रसाद राव (अनु. जा.), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/- 01 सितम्बर 2009

पी सुनन्दा देवी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/- 01 सितम्बर 2009

एम सुदर्शन, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

डी के नेवारे (अनु.जा.), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) + 6,600/-, 01 सितम्बर 2009

एम बी रमन, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/- 01 सितम्बर 2009

के शंकर (अनु.जा.), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/- 01 सितम्बर 2009

के बी रमन, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/-, 01 सितम्बर 2009

जी मुरली कृष्णा राव, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/-, 01 सितम्बर 2009

टी जे प्रशान्त, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/-, 01 सितम्बर 2009

मधोलकर लक्ष्मन, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/-, 01 सितम्बर 2009

डी कृष्णामूर्थी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) + 5,400/-, 01 सितम्बर 2009

ए नरसिंह राव (अनु.जा.), डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) + 4,800/- 01 सितम्बर 2009

के वेंकट लक्ष्मी, डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) + 4,800/- 01 सितम्बर 2009

एस पी नरसिंह राव, डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) + 4,800/-, 01 सितम्बर 2009

टी कुमारस्वामी (अनु.जा.), डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) + 4,800/-, 01 सितम्बर 2009

बी राज कुमार (अनु.जा.), डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) + 4,800/-, 01 सितम्बर 2009

बी गोपालकृष्णा (अनु.जा.), डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (9,300--34,800) +4,800/-, 01 सितम्बर 2009

डी शरनाप्पा, डीआरडीएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (9,300--34,800) +4,800/-, 01 सितम्बर 2009

पी जे कामले (अनु.जा.), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (15,600--39,100) +7,600/-, 01 सितम्बर 2009

आर दानिअल, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (15,600--39,100) +7,600/-, 01 सितम्बर 2009

पी जी कुलकर्णी, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (15,600--39,100) +7,600/-, 01 सितम्बर 2009

ए एम देवाले, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/-, 01 सितम्बर 2009

सी के घाटक, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/- 01 सितम्बर 2009

एन आर साह, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/-, 01 सितम्बर 2009

एन टी चिटले, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/-, 01 सितम्बर 2009

एल डी नालागे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/-, 01 सितम्बर 2009

ए वी बासले, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/- 01 सितम्बर 2009

एस रमन, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/- 01 सितम्बर 2009

एम टी शेडगे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/-, 01 सितम्बर 2009

के एम धुलेकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/-, 01 सितम्बर 2009

एस बी यादव, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/-, 01 सितम्बर 2009

एस एच वैद्या, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/-, 01 सितम्बर 2009

जी एम यशवन्त (अनु.ज.जा.), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100)+5,400/-, 01 सितम्बर 2009

डी एस जाधव, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

ए ए टामबोली, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

डी डी गायकवाड, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

के बी देशमुख, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

एम पी थाकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

एस एस इलाके, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

बी बी जाधव, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

ए एम कोटबागी, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

जी जी पेचफुले, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

वी वी कुलकर्णी, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

आर एन पुन्डकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

बी जी पाडले (अनु.जा.), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

ए आर कुलकर्णी, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

आर जी भालेराव (अनु.जा.), एचईएमआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800) +4,800/-, 01 सितम्बर 2009

सीमा सक्सेना, ईसा, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/-, 01 सितम्बर 2009

जार्ज अब्राहम, एमटीआरडीसी, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/-, 01 सितम्बर 2009

एस के अरूत पवाई (अनु.जा.), एमटीआरडीसी तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

जे ए कारनिक, एनएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (15,600--39,100) +7,600/-, 01 सितम्बर 2009

धरमन्त सिंह, एनएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/-, 01 सितम्बर 2009

जेरार्द लकरा (अनु.ज.जा.), एनएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/-, 01 सितम्बर 2009

एन जी मालवन्कर, एनएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

कुलजीत कौर, एसएजी, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (15,600--39,100) +7,600/-, 01 सितम्बर 2009

आर पी सिंह, एसएजी, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100) +6,600/-, 01 सितम्बर 2009

जगदीश प्रसाद (अनु.जा.), एसएजी, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100) +5,400/-, 01 सितम्बर 2009

बी बी शर्मा  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)

#### सेना शाखा

सं. 403, दिनांक 28 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 05 दिसम्बर 2008 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
कप्तान के पद पर

राकेश कुमार गौतम (एमएस-15393वाई) (एमआर-08937ए), एएमसी, 22 सितम्बर 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 22 सितम्बर 2004 से हो जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एनेस्थीसीयोलॉजी के लिए दी गई 24 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09 फरवरी 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 01 जुलाई 2009 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
कप्तान के पद पर

भारत (एमएस-15391एन) (एमआर-08936एक्स), एएमसी, 22 सितम्बर 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 22 सितम्बर 2003 से हो जाएगी। इसमें मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09 फरवरी 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 30 दिसम्बर 2009 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथासंशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
कप्तान के पद पर

शैलेन्द्र कुमार शर्मा (एमएस-15441एन) (एमआर-08938एच), एएमसी, 22 जनवरी 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 नवम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)।

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 05 दिसम्बर 2008 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथासंशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
लेफ्टि के पद पर

शैलेश मोगरा (एमएस-14932एक्स) (एमआर-08934एम), एएमसी, 21 फरवरी 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जून 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)।

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 15 जून 2006 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथासंशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर

के आनंथ किनि (एमएस-14393एम) (75796एन) (एमआर-08616एच), एएमसी, 18 फरवरी 2002 को वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 18 अगस्त 2001 से हो जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11 नवम्बर 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रह किया जाता है।)

यश पांडे  
ब्रिगे

उप महानिदेशक स से वि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 404, दिनांक 28 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आईसी-40764) कर्नल रवि मेनन, आर्टी, 01 नवम्बर 2008 (अपराह)

(आईसी-44565) कर्नल बृजेश कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री, 22 जून 2008 (अपराह)

(आईसी-42757) कर्नल विरेन्द्र सिंह मलिक, इन्फैन्ट्री, 05 जुलाई 2008 (अपराह)

(आईसी-35931) कर्नल अरूण कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री, 25 जनवरी 2008 (अपराह)

(आईसी-44678) कर्नल उप्पल जतिन्दर पाल सिंह, इन्फैन्ट्री, 29 मार्च 2008 (अपराह)

(आईसी-35865) कर्नल आर एस नेहरा, ईएसी, 31 अक्टूबर 2008

(आईसी-39128) कर्नल रत्नदीप उमाकान्तराव नन्दगाँवकर, एएडी, 14 जुलाई 2009 (अपराह)

(आईसी-40188) कर्नल (टीएस) कपिल देव प्रसाद, आर्टी, 2 अक्टूबर 2008 (अपराह)

(आईसी-37589) कर्नल (टीएस) दत्ता आशीष कुमार, एएडी, 0 नवम्बर 2008 (अपराह)

(आईसी-38741) कर्नल जसविन्दर सिंह, एसी, 31 अक्टूबर 2009 अपराह)

(आईसी-38195) कर्नल मिलिन्द शरदचन्द्र सोल्के, ईएमई, 3 जुलाई 2008 (अपराह)

(आईसी-41732) कर्नल नवनीत कुमार घई, ईएमई, 21 मार्च 2009 अपराह)

(आईसी-43234) कर्नल अरने चितकारा, एसी, 11 जनवरी 2010 अपराह)

(आईसी-42314) कर्नल ढालीवाल जगजीत सिंह, आर्टी, 28 जनवरी 10 (पूर्वाह)

(आईसी-39810) कर्नल सौरभ सान्याल, इंजीनियर्स, 11 सितम्बर 09 (अपराह)

(आईसी-41861) कर्नल राजेश सूद, ईएमई, 31 जनवरी 2009 (अपराह)

(आईसी-44879) कर्नल आर एस वेंकटरमन, ईएमई, 02 सितम्बर 2008 (अपराह)

(आईसी-43777) कर्नल प्रशान्त पी ओक, आर्टी, 08 फरवरी 2010 (अपराह)

(आईसी-38871) कर्नल राजेश सिन्हा, आर्टी, 03 नवम्बर 2008 (अपराह)

(आईसी-47069) कर्नल एस एस खेड़ा, इंजीनियर्स, 31 जुलाई 2009 (अपराह)

(आईसी-40347) कर्नल अनिरुद्ध नरसिन्हा गुडी, सिग्नल्स, 16 दिसम्बर 2009 (अपराह)

(आईसी-39007) कर्नल (टीएस) अरूण आम्बे, एओसी, 25 जुलाई 2007 (अपराह)

(आईसी-39331) ए/कर्नल श्यामजी मेहरोत्रा, एओसी, 10 अप्रैल 2006 (अपराह)

(आईसी-40308) कर्नल संजय कुमार सक्सेना, सिग्नल्स, 14 फरवरी 2008

(आईसी-35623) कर्नल राज कमल कपूर, सिग्नल्स, 30 नवम्बर 2009 (अपराह)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा उनको अधिकारियों के नियमित आरक्षी कोटे (क्लास X) आधीन एसएआई 10/3/63 यथा संशोधित में स्थानांतरित करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आईसी-41772) ले कर्नल हरeram सिंह, ईएमई, 11 जनवरी 2010 (अपराह)

(आईसी-47221) ले कर्नल जी मथियालगन, आर्टी, 06 दिसम्बर 2009 (अपराह)

(आईसी-48705) ले कर्नल जी कार्थिकेयन, आर्टी, 12 जनवरी 2010

(एसएल-04598) ले कर्नल दुबे दया शंकर, जीएस, 16 दिसम्बर 2008

(आईसी-58190) मेजर विवेक सिंह, आर्टी, 28 दिसम्बर 2009 (अपराह)

(आईसी-44347) ले कर्नल लीलाधर शर्मा, आर्टी, 31 दिसम्बर 2009 (अपराह)

(आईसी-44452) ले कर्नल अवनी कुमार तिवारी, ईएमई, 18 नवम्बर 2009 (अपराह)

(आईसी-48114) ले कर्नल शकोताई करन संपत, ईएमई, 31 अक्टूबर 2009 (अपराह)

(आईसी-44883) ले कर्नल सन्नी थोमस, ईएमई, 11 अक्टूबर 2009 (अपराह)

(आईसी-51401) ले कर्नल बलजीत सिंह, ईएमई, 09 सितम्बर 2009 (अपराह)

(आईसी-44433) ले कर्नल के जोसफ, ईएमई, 20 अप्रैल 2008 (अपराह)

(आईसी-42250) ले कर्नल गुन्नु भास्कर राव, इंजीनियर्स, 30 जून 2008 (अपराह)

(आईसी-44131) ले कर्नल जसवाल शशी कान्त, ईएमई, 31 अक्टूबर 2009 (अपराह)

(आईसी-44698) ले कर्नल मोहिन्दर कुमार यादव, एएससी, 31 जुलाई 2008 (अपराह)

(एसएल-04275) ले कर्नल चन्द्र पाल सिंह, एओसी, 31 अक्टूबर 2009 (अपराह)

(आईसी-42170) ले कर्नल सुभाष चन्दर कोहर, आर्टी, 30 नवम्बर 2008 (अपराह)

(आईसी-51799) ले कर्नल वेंकटवेनु माधव पीईएमई, ईएमई, 10 जनवरी 2009 (अपराह)

(आईसी-49404) ले कर्नल जॉर्जी पी कुरियन, ईएमई, 10 अक्टूबर 2009 (अपराह)

(एससी-00148) मेजर बोदस विवेक गंगाधर, ईएमई, 31 अक्टूबर 2009 (अपराह)

(आईसी-48570) ले कर्नल मनजीत सिंह, मेक इन्फैन्ट्री (गार्ड्स), 06 जनवरी 2010 (अपराह)

(आईसी-46101) ले कर्नल बी एस राजमोहन, एएडी, 29 मार्च 2009 (अपराह)

(आईसी-44289) ले कर्नल अमन सिंह यादव, एएससी, 21 जनवरी 2009 (अपराह)

(आईसी-55775) मेजर हरविन्दर सिंह बैन्स, आईसी, 02 मई 2009 (अपराह)

(आईसी-46260) ले कर्नल नवनीत सिंह बावेजा, एसी, 08 मार्च 2010 (अपराह)

(आईसी-57058) मेजर जितेन्द्र हरजाई, आर्टी, 31 जनवरी 2010 (अपराह)

(आईसी-42840) ले कर्नल संजय सिंह, इंजीनियर्स, 22 अप्रैल 2008 (अपराह)

(आईसी-48022) ले कर्नल शिव कुमार कटारा, इंजीनियर्स, 30 सितम्बर 2008 (अपराह)

(आईसी-42060) ले कर्नल अनिल तिवारी, इंजीनियर्स, 30 सितम्बर 2008 (अपराह)

(आईसी-48576) ले कर्नल नितिन राज, सिग्नल्स, 06 दिसम्बर 2009 (अपराह)

(आईसी-44990) ले कर्नल पीआरपी राजू, इंजीनियर्स, 07 दिसम्बर 2009 (अपराह)

(आईसी-47091) ले कर्नल जीआरबी देवनन्दम, एओसी, 31 अक्टूबर 2009 (अपराह)

(आईसी-49093) ले कर्नल संदीप कुमार दहिया, इन्ट, 20 जनवरी 2010 (अपराह)

(आईसी-51471) ले कर्नल बेनी मथ्यू, एओसी, 30 नवम्बर 2009 (अपराह)

(आईसी-44820) ले कर्नल सन्नी के ए, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2009 (अपराह)

(आईसी-45242) ले कर्नल परविन्दर सिंह, इंजीनियर्स, 07 दिसम्बर 2009 (अपराह)

(आईसी-40877) ले कर्नल जसपाल सिंह रीन, इंजीनियर्स, 06 दिसम्बर 2009 (अपराह)

(आईसी-44947) ले कर्नल नरेश गुप्ता, इंजीनियर्स, 21 जनवरी 2009 (अपराह)

(एसएल-3938) ले कर्नल जॉर्ज सी जे, जेन सर्विस, 08 अप्रैल 2007 (अपराह)

(आईसी-41267) ले कर्नल कुलदीप राणा, एओसी, 31 जुलाई 2006 (अपराह)

(आईसी-44844) ले कर्नल संजय जोहरी, एओसी, 11 जनवरी 2008 (अपराह)

(आईसी-43068) ले कर्नल अतुल मरवाहा, एओसी, 28 जुलाई 2006 (अपराह)

(आईसी-43972) ले कर्नल अरूण सिन्धुवानी, एओसी, 14 नवम्बर 2006 (अपराह)

(आईसी-41721) ले कर्नल रणजीत सिंह गरेवाल, एओसी, 30 सितम्बर 2006 (अपराह)

(आईसी-43242) ले कर्नल नरेन्द्र सिंह शेखावत, एओसी, 24 अक्टूबर 2006 (अपराह)

(आईसी-44399) ले कर्नल अशोक शर्मा, एओसी, 28 फरवरी 2007 (अपराह)

(आईसी-48383) ले कर्नल संदीप यादव, एओसी, 15 फरवरी 2009 (अपराह)

(आईसी-49491) ले कर्नल चन्द्र शेखर, एओसी, 22 दिसम्बर 2008 (अपराह)

(आईसी-48360) ले कर्नल शोएबाल चटर्जी, सिग्नल्स, 11 अक्टूबर 2009 (अपराह)

(एसएल-3861) ले कर्नल भास्करन के पी, सिग्नल्स, 11 अक्टूबर 2008 (अपराह)

- (आईसी-48673) ले कर्नल रणवीर सिंह यादव, एसएम, मैक इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2009 (अपराह)
- (आईसी-47059) ले कर्नल अजय भाटिया, ईएमई, 11 अक्टूबर 2008 (अपराह)
- (आईसी-47235) ले कर्नल के रमेश कुमार, ईएमई, 29 जुलाई 2008 (अपराह)
- (आईसी-47982) ले कर्नल आलोक किनरा, ईएमई, 03 जुलाई 2008 (अपराह)
- (आईसी-41956) ले कर्नल मोहन कुमार, ईएमई, 31 जुलाई 2008 (अपराह)
- (आईसी-48440) ले कर्नल अशित महापात्रा, ईएमई, 30 अप्रैल 2008 (अपराह)
- (आईसी-54284) ले कर्नल सुनील कुमार वी, ईएमई, 27 जनवरी 2010 (अपराह)
- (आईसी-47989) ले कर्नल प्रसेनजीत चक्रवर्ती, ईएमई, 01 सितम्बर 2008 (अपराह)
- (आईसी-43792) ले कर्नल मनदादी एस रेड्डी, आर्टी, 13 अगस्त 2008 (अपराह)
- (आईसी-47775) ले कर्नल दलजीत सिंह चद्दा, आर्टी, 16 अगस्त 2008 (अपराह)
- (आईसी-44778) ले कर्नल मुकेश रांगरा, आर्टी, 28 जून 2008 (अपराह)
- (आईसी-43732) ले कर्नल विक्रम सिंह, आर्टी, 29 फरवरी 2008 (अपराह)
- (आईसी-47893) ले कर्नल सुधांशु चतुर्वेदी, आर्टी, 25 अगस्त 2008 (अपराह)
- (आईसी-57951) मेजर जे सुरेश, ईएमई, 27 जनवरी 2010 (अपराह)
- (आईसी-43327) ले कर्नल एन एस पन्डयन, आर्टी, 10 जनवरी 2009 (अपराह)
- (आईसी-46392) ले कर्नल नरेन्द्र सिंह चिकारा, आर्टी, 03 फरवरी 2009 (अपराह)
- (आईसी-45917) ले कर्नल सी पी प्रेम वास, आर्टी, 10 जनवरी 2009 (अपराह)
- (आईसी-44355) ले कर्नल अहलुवालिया राजेन्द्र पाल सिंह, इंजीनियर्स, 03 अप्रैल 2008 (अपराह)
- (आईसी-40334) ले कर्नल तन्नेरू श्रीनिवास रंगाराव, इंजीनियर्स, 03 नवम्बर 2008 (अपराह)
- (आईसी-47508) ले कर्नल प्रवीन कौल, इंजीनियर्स, 25 जून 2008 (पूर्वाह)
- (आईसी-48173) ले कर्नल मुनीश नारद, सिग्नल्स, 31 जनवरी 2010 (अपराह)

- (आईसी-48951) मेजर राजाशेखर एस पाटिल, इंजीनियर्स, 25 सितम्बर 2009 (अपराह)
- (एसएल-4059) ले कर्नल गुरबख्श सिंह, सिग्नल्स, 07 जनवरी 2007 (अपराह)
- (आईसी-43550) ले कर्नल आलोक करुणाकर, सिग्नल्स, 18 दिसम्बर 2006 (अपराह)
- (आईसी-42731) ले कर्नल इन्दरजीत सिंह ढिल्लन, सिग्नल्स, 29 मार्च 2009 (अपराह)
- (आईसी-47967) ले कर्नल आर वेन्कटस्वरा रॉव, इंजीनियर्स, 11 अक्टूबर 2008 (पूर्वाह)

एस के चक्रवर्ती  
संयुक्त निदेशक  
एमएस/पीआर

सेना शाखा

सं. 405, दिनांक 28 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नांकित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाए रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

ले कर्नल आर के एन परमार (टीए-41766), (इंजीनियर टीए), 31 दिसम्बर 2008 (अपराह)

जय राज  
अवर सचिव

सेना शाखा

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले से कप्तान

शुद्धि पत्र

सं. 406, दिनांक 28 जून 2010--भारत के राजपत्र संख्या 530/2007 में दिनांक 27 अक्टूबर 2007 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "ले से कप्तान" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले : रिशमा सरिन, एससी, 01 सितम्बर 2006  
पढ़ा जाए : --रिक्त--

जसवन्त सिंह  
संयुक्त निदेशक  
एमएस-8सी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 31st July 2010

No. 387, the 22nd July 2010—The President is pleased to make the following appointments :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be Lts wef 12 Dec 2009

The undermentioned Gentlemen Cadets of 125 Regular Course (125 DE, 115 Ex NDA and 92 Ex ACC) are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 12 Dec 2009 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE, AI 53/78) read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC) :—

## IC No., Name &amp; Arm/Services

(IC-71713P) Ravi Shukla, Inf  
 (IC-71714X) Harshwardhan Pathak, AC  
 (IC-71715A) Rohit Pandita, AC  
 (IC-71716H) Abhishek Singh, Inf  
 (IC-71717L) Yogesh Tamang, Inf  
 (IC-71718N) Yogendra Singh Negi, Inf  
 (IC-71719W) Vineet Kumar, Inf  
 (IC-71720L) Avshesh Singh, Inf  
 (IC-71721N) Dikshant Mahajan, Inf  
 (IC-71722W) Veeranna Mallikarjun Karadi, Engrs  
 (IC-71723Y) Ravi Kumar, Arty  
 (IC-71724F) Aditya Sharma, Inf  
 (IC-71725K) Arun Kumar, Arty  
 (IC-71726M) Anurag Chauhan, Arty  
 (IC-71727P) Hemant Kumar Saini, EME  
 (IC-71728X) Anurag Darshan, Arty  
 (IC-71729A) Sachin Khokhar, AOC  
 (IC-71730P) Laldinpuia, Inf  
 (IC-71732A) Joshi Mandar Shridhar, Mech  
 (IC-71733H) Ankit Tomar, Arty  
 (IC-71734L) Besri Lal, Arty  
 (IC-71735N) Anand Mani Tripathi, Inf  
 (IC-71736W) Dhanesh Dutt Upadhyay, AAD  
 (IC-71737Y) Gaurav Gupta, Inf  
 (IC-71738F) Samudre Subodh Rameshrao, Inf

(IC-71739K) Sanjay Rawat, Inf  
 (IC-71740Y) Rahul Chauhan, Engrs  
 (IC-71741F) Girish Tiwari, ASC  
 (IC-71742K) Pujari Rohit Shivaji, Arty  
 (IC-71743M) Subhash Gurung, ASC  
 (IC-71744P) Kanwar Rai Deep Singh Guleria, Engrs  
 (IC-71745X) Prateek Bhandari, AC  
 (IC-71746A) Nirmal Kumar J, Arty  
 (IC-71747H) Puneet Gupta, AAD  
 (IC-71748L) Jai Prakash Saini, AC  
 (IC-71749N) Avinash Sahebrao Dange, Inf  
 (IC-71750H) Upesh Kumar, Inf  
 (IC-71751L) Sandeep Beniwal, Engrs  
 (IC-71752N) Kollouru Pavan Kumar, Inf  
 (IC-71753W) Anshul Oberh, Inf  
 (IC-71754Y) Ajay Singh Shekhawat, Inf  
 (IC-71755F) Vishnu Kumar Katara, Inf  
 (IC-71756K) Amar Bhaskar, Arty  
 (IC-71757M) Amardeep, Engrs  
 (IC-71758P) Venkata Ravi Kiran J, Arty  
 (IC-71759X) Sharan Nair, Arty  
 (IC-71760M) Sanjay Kumar, ASC  
 (IC-71761P) Gyanendra Madhukar, Inf  
 (IC-71762X) Chandra Mani Tripathi, AAD  
 (IC-71763A) Pankaj Pathak, Inf  
 (IC-71764H) Sushant Kumar, ASC  
 (IC-71765L) Shohan Singh Bisht, Inf  
 (IC-71766N) Pawan Kumar Sinha, Arty  
 (IC-71767W) Atinder Pal Singh Mann, Mech  
 (IC-71768Y) Ishan Katoch, Arty  
 (IC-71769F) Udit Gupta, Engrs  
 (IC-71770W) Vaibhav Pandey, Arty  
 (IC-71771Y) Himanshu Arora, Inf  
 (IC-71772F) Rajendra Singh Adhikari, AOC  
 (IC-71773K) Saras Gandhi, Arty

|   |  |
|---|--|
| (IC-71774M) Jainendra Singh, AOC          | (IC-71809X) Vinay Phogat Singh, AOC    |
| (IC-71775P) Nikhileshwar Jha, Inf         | (IC-71810M) Digamber Singh Rawat, AOC  |
| (IC-71776X) Harender Singh, AVN           | (IC-71811P) Viral Subhash Momaya, Inf  |
| (IC-71777A) Anil Kumar, Arty              | (IC-71812X) Nawal Kishore, Inf         |
| (IC-71778H) Harsh Bharat Jani, Inf        | (IC-71813A) Nitish Kumar Singh, EME    |
| (IC-71779L) Abdul Qadeer, Arty            | (IC-71814H) Mahendra Rathore, Mech     |
| (IC-71780A) Dinesh Poonia, AC             | (IC-71815L) Prateek Gupta, Inf         |
| (IC-71781H) Jonathan Lalremruat, Inf      | (IC-71816N) Gurbhinderpal Singh, Arty  |
| (IC-71782L) Utsav, Inf                    | (IC-71817W) Mani Krishna, Engrs        |
| (IC-71783N) Manoj Yadav, Arty             | (IC-71818Y) Somprabh Shukla, Arty      |
| (IC-71784W) Vaibhav Khanna, Inf           | (IC-71819F) Jitesh PR, Engrs           |
| (IC-71785Y) Manish Kumar Singh, Inf       | (IC-71820W) Ashok K, Inf               |
| (IC-71786F) Vinod Singh Bohra, Inf        | (IC-71821Y) Hemraj Singh Bisht, Inf    |
| (IC-71787K) Koppisetty Murali Mohan, Mech | (IC-7822F), D Suresh Kumar, Arty       |
| (IC-71788M) Achal Kumar Kashyap, Arty     | (IC-71823K) Narinder Kumar Sharma, ASC |
| (IC-71789P) Himmat Singh, ASC             | (IC-71824M) Anubhav Kumar, AAD         |
| (IC-71790K) Anshuman Dangwal, Inf         | (IC-71825P) Syusal Rajendra N, Arty    |
| (IC-71791M) Abhinav Rawat, Engrs          | (IC-71826X) Maninder Singh, AC         |
| (IC-71792P) Bijon Kanti Roy, AAD          | (IC-71827A) Sunil Koshal, Inf          |
| (IC-71793X) RK Banu Chander, Inf          | (IC-71828H) Rahul Kumar Thapa, Inf     |
| (IC-71794A) Nitin Kumar, Sigs             | (IC-71829L) Jithin Thomas, Inf         |
| (IC-71795H) Ajay Kumar, Arty              | (IC-71830A) Pritpal Singh, Arty        |
| (IC-71796L) Nikhil Nambiar, Inf           | (IC-71831H) Saurabh Dimri, Arty        |
| (IC-71797N) Praphulla Kumar, Inf          | (IC-71832L) Naushad, Arty              |
| (IC-71798W) Ajit Pal Singh Dhanoa, Inf    | (IC-71833N) Onkar Lahu Kanase, ASC     |
| (IC-71799Y) D Arun Kumar, AOC             | (IC-71834W) Deepak Kumar Upadhyay, Inf |
| (IC-71800H) Akhilesh Singh Parihar, Inf   | (IC-71835Y) Biswajit Kumar, Inf        |
| (IC-71801L) Hemant Kumar Kothiwale, Engrs | (IC-71836F) Abhishek Awasthi, Inf      |
| (IC-71802N) Rishabh Garg, EME             | (IC-71837K) Arun Sharma, Sigs          |
| (IC-71803W) Pradeep Singh, Arty           | (IC-71838M) Kaushal Chettri, AAD       |
| (IC-71804Y) Shariq Azad, Inf              | (IC-71839P) Nithin Shanker, Inf        |
| (IC-71805F) Harsh Pathania, Inf           | (IC-71840K), Varun Gloch, Inf          |
| (IC-71806K) Om Prakash Bhola, Inf         | (IC-71841M) Parikshit Das, Inf         |
| (IC-71807M) Surendra Singh Karki, Inf     | (IC-71842P) Manoj Kumar Joshi, Mech    |
| (IC-71808P) Piyush Kumar, Arty            | (IC-71843X) Vikrant Panwar, Engrs      |

(IC-71844A) Sunil Shankarrao Ramlod, Engrs  
 (IC-71845H) Vibhor Tyagi, Inf  
 (IC-71846L) Shikhar Christopher Meston, Inf  
 (IC-71847N) Paryant Bedwal, ASC  
 (IC-71848W) Anuj Rathour, AOC  
 (IC-71849Y) Ritwik Sankrit, Arty  
 (IC-71850N) Siddharth Singh, EME  
 (IC-71851W) Manish Singh, Arty  
 (IC-71852Y) Gaurav Kinha, Engrs  
 (IC-71853F) Harender Singh, Arty  
 (IC-71854K) Divyankit Nainwal, Engrs  
 (IC-71855M) Naveen Yadav, Arty  
 (IC-71856P) Arun Prakash Ambathy, Inf  
 (IC-71857X) Sachin Shivaling Honawad, Inf  
 (IC-71858A) Abhishek Kumar Singh, Int  
 (IC-71859H) Pushap Sharma, Arty  
 (IC-71860X) Vikas Dixit, Inf  
 (IC-71861A) S Balasubrahmanyam, AC  
 (IC-71862H) Saroj Kumar Yadav, ASC  
 (IC-71863L) AP Rahuldas, AC  
 (IC-71864N) Amit Jangra, Inf  
 (IC-71865W) Chingtham Dhanachanda Singh, Arty  
 (IC-71866Y) Atul Kumar Singh, ASC  
 (IC-71867F) Manish Chahal, Inf  
 (IC-71868K) Atla Aravinda Kumar Reddy, AAD  
 (IC-71869M) Bhoj Bahadur Thapa, Inf  
 (IC-71870F) Ajay Kumar Singh, Arty  
 (IC-71871K) Animesh Tripathi, Engrs  
 (IC-71872M) Manikandan S, Arty  
 (IC-71873P) Saurabh Suman, Arty  
 (IC-71874X) Manoj Kumar, Inf  
 (IC-71875A) Subroto Adhichary, Inf  
 (IC-71876H) Surajinder Singh, Arty  
 (IC-71877L) Chandan Kumar Suman, Arty  
 (IC-71878N) Pramod Kumar, Sigs

(IC-71879W) Zala Sandipkumar Bharatsinh, ASC  
 (IC-71880L) Gagandeep Singh Sethi, Inf  
 (IC-71881N) Manish Kumar, EME  
 (IC-71882W) Rakesh Singh, Arty  
 (IC-71883Y) Suresh Chand Rajan, Inf  
 (IC-71884F) Vaibhav Vishal, Inf  
 (IC-71885K) Sanchit Gupta, Arty  
 (IC-71886M) Siddharth Tyagi, Mech  
 (IC-71887P) Manoj Kumar Mishra, ASC  
 (IC-71888X) Satish Pal, AAD  
 (IC-71889A) Vineet Kumar Pandey, Arty  
 (IC-71890P) M Velmurugan, Engrs  
 (IC-71891X) Laxman Singh Shekhawat, Inf  
 (IC-71892A) Hem Raj, AOC  
 (IC-71893H) Gurpreet Singh, Inf  
 (IC-71894L) Vinod Joshi, Arty  
 (IC-71895N) Aman Singh, AC  
 (IC-71896W) Saurabh Mahajan, Arty  
 (IC-71897Y) Tushar Bargali, AAD  
 (IC-71898F) Bimal Singh, AOC  
 (IC-71899K) Vipin Yadav, Arty  
 (IC-71900N) Surendra Pratap Singh, Arty  
 (IC-71901W) Pratik Shrirang Fule, ASC  
 (IC-71902Y) Biju Chabukdhara, Inf  
 (IC-71903F) Auronee Das, Engrs  
 (IC-71904K) Prakul Dixit, Engrs  
 (IC-71905M) YV Narasimhan, Inf  
 (IC-71906P) Deepak Kishore Rawat, AC  
 (IC-71907X) Mathan Kumar, Inf  
 (IC-71908A) Deepak Kumar Singh, ASC  
 (IC-71909H) Unnikuttan S, Int  
 (IC-71910X) Vikas Singh, Inf  
 (IC-71911A) Rengarajan G, EME  
 (IC-71912H) Dheerendra Singh, Inf  
 (IC-71913L) Ashish Upadhyay, Engrs

|   |   |
|---|---|
| (IC-71914N) Surender Malik, AOC                 | (IC-71953M) Shanker Dayal Sharma, Arty      |
| (IC-71915W) Abhilash SV, AOC                    | (IC-71954P) Divesh Kumar, Inf               |
| (IC-71916Y) Sai Bhargav Nallagatla, Arty        | (IC-71955X) Surendra Pratap Singh, Arty     |
| (IC-71917F) Surendra Singh, Inf                 | (IC-71956A) Manoj Basnet, ASC               |
| (IC-71918K) Gaurav Joshi, Inf                   | (IC-71957H) Nikhil Choudhary, ASC           |
| (IC-71919M) Chetan Singh Kabsuri, Inf           | (IC-71958L) Manoj Kumar Tiwari, Engrs       |
| (IC-71920F) Kurimella Jayanth, Engrs            | (IC-71959N) Chandrakant Joshi, Engrs        |
| (IC-71921K) Sanjay Kumar Dwivedi, Sigs          | (IC-71960H) Robin Jacob, Inf                |
| (IC-71922M) Vaibhav Rana, AVN                   | (IC-71961L) Keripale Swapnil Laxman, Arty   |
| (IC-71923P) Neeraj Tomar, Arty                  | (IC-71962N) Sumit Singh, Arty               |
| (IC-71924X) Mrityunjay Kumar Mishra, Arty       | (IC-71963W) Sardhanand Lather, AC           |
| (IC-71925A) Rohit Kumar, Arty                   | (IC-71964Y) Sunil Kumar, Arty               |
| (IC-71926H) Changda Riyaz M Basir, AVN          | (IC-71965F) Shailender Kumar Verma, Inf     |
| (IC-71927L) Rai Sanjeshkumar Sabhashankar, Arty | (IC-71966K) J Harihara Karthik Verma, AOC   |
| (IC-71928N) Ankit Kumar Dubey, Arty             | (IC-71967M) Satish Dahiya, ASC              |
| (IC-71929W) Rohit Bhatia, Arty                  | (IC-71968P) Sunil Kumar Sharma, Arty        |
| (IC-71930L) Parveen Hooda, Inf                  | (IC-71969X) Patil Prem Kumar Krishna, Arty  |
| (IC-71931N) Sukhwinder Singh, ASC               | (IC-71970M) Kunwar Manish Singh, AAD        |
| (IC-71932W) Naseem Ahmad, Inf                   | (IC-71971P) Joseph PK, Inf                  |
| (IC-71933Y) Piush Sethi, Inf                    | (IC-71972X) Vikash Singh, Engrs             |
| (IC-71934F) Bharat Yadav, AC                    | (IC-71973A) Vinod Jaswal, Inf               |
| (IC-71935K) Mandeep Sheokand, Inf               | (IC-71974H) B Isaac Inba Kumar, Arty        |
| (IC-71936M) Bhatia Love Tilak Raj, Inf          | (IC-71975L) Sudhir, Mech                    |
| (IC-71937P) Sunil Yadav, Engrs                  | (IC-71976N) Deepak Kumar Singh Chauhan, EME |
| (IC-71938X) Mukesh Rai, Inf                     | (IC-71977W) Sagar Deshpande, AOC            |
| (IC-71939A) Cinu Chandran, Mech                 | (IC-71978Y) Vikas Thakur, Inf               |
| (IC-71940P) Ravinder, Inf                       | (IC-71979F) Prashant Kumar, Inf             |
| (IC-71941X) Himanshu, AAD                       | (IC-71980W) Devendra Guleria, Inf           |
| (IC-71942A) Chiranjibi Khatri, Inf              | (IC-71981Y) Binod Negi, Arty                |
| (IC-71943H) Kulkarni Sagar Balkrishna, Arty     | (IC-71982F) Saumya Ghatak, Inf              |
| (IC-71944L) Parasa Likhit Goud, ASC             | (IC-71983K) Mayank Sharma, Arty             |
| (IC-71945N) Justin Joseph, Inf                  | (IC-71984M) Varun Vipin Vaidya, Inf         |
| (IC-71946W) Aditya Raina, AOC                   | (IC-71985P) Hollynson John Pallai, Engrs    |
| (IC-71947Y) Sushil Kumar, Inf                   | (IC-71986X) Suman Kumar Jena, Inf           |
| (IC-71948F) Rajendra Singh Bisht, Inf           | (IC-71987A) Anuj Kumar Jha, Inf             |
| (IC-71949K) Rajender Prasad, Inf                | (IC-71988H) Ashish Malik, ASC               |
| (IC-71950Y) Vikram Singh Yogi, Inf              | (IC-71989L) Utkarsh Mishra, AOC             |
| (IC-71951F) Surender K, Arty                    | (IC-71990A) Ajit Kumar Shukla, Arty         |
| (IC-71952K) Rahul Kumar, EME                    | (IC-71991H) Ashish Sharma, Arty             |

(IC-71992L) Madhur Bhatt, Arty  
 (IC-71993N) Neeraj Sharma, Inf  
 (IC-71994W) Amit Kumar Chaubey, Inf  
 (IC-71995Y) Navin Kumar Dhanuka, Sigs  
 (IC-71996F) Sunil More, Inf  
 (IC-71997K) Anurag Mittal, Arty  
 (IC-71998M) Sandeep Dange, Engrs  
 (IC-71999P) Shamsheer Singh, Int  
 (IC-72000W) Aditya Sharma, Inf  
 (IC-72001Y) Sachin Kumar, Mech  
 (IC-72002F) Vikram Bahadur Singh, ASC  
 (IC-72003K) Subash Singh Negi, Inf  
 (IC-72004M) VW Akhil, AC  
 (IC-72005P) Satender Kumar Singh, Engrs  
 (IC-72006X) Mohit Goyal, AC  
 (IC-72007A) Krishan Singh, Inf  
 (IC-72008H) Praphull Ghildiyal, Arty  
 (IC-72009L) Ashok Kumar, AAD  
 (IC-72010A) Jathish N, Inf  
 (IC-72011H) Abhishek Kumar, Inf  
 (IC-72012L) Chaubey Anup Kumar, EME  
 (IC-72013N) Thakur Mahesh Singh Ramshankar Singh, Inf  
 (IC-72014W) Gagandeep Singh Purba, Inf  
 (IC-72015Y) Amit Tomar, Arty  
 (IC-72016F) Parmod Mechu, Arty  
 (IC-72017K) Manish Pareek, Arty  
 (IC-72018M) Amit Kumar Pathania, Arty  
 (IC-72019P) Amit Rana, ASC  
 (IC-72020K) Shashi Kant, Engrs  
 (IC-72021M) Sukhad Tripathi, AAD  
 (IC-72022P) Arpit Pareek, Inf  
 (IC-72023X) Varun Verma, Arty  
 (IC-72024A) Chitiki Reddy Sridhar, Arty  
 (IC-72025H) Samrat Ghosh, AOC  
 (IC-72026L) Nitin Vijay, Inf  
 (IC-72027N) Ankur Agnihotri, Arty  
 (IC-72028W) Sharath Menon, Inf  
 (IC-72029Y) Bharat Patni, Inf  
 (IC-72030N) Kumar Gaurav, AC

(IC-72031W) Prashant Mishra, Inf  
 (IC-72032Y) Pradyumn Kumar Rai, Engrs  
 (IC-72033F) Prashant Tripathi, Arty  
 (IC-72035M) Rishabh Mishra, Mech  
 (IC-72036P) Karoonjyot Singh Raina, AC  
 (IC-72037X) Ajay Pal Singh Rawat, Inf  
 (IC-72038A) Bhavani Bhatt, EME  
 (IC-72039H) Deepanshu Chaudhary, ASC  
 (IC-72040X) Nikhil Prakash, Arty  
 (IC-72041A) Saurabh Tomar, Inf  
 (IC-72042H) Ajit Kumar M Rajan, Engrs  
 (IC-72043L) Kelji Nikhil Shashikant, Inf  
 (IC-72044N) Vijay Baishya, Inf  
 (IC-72045W) Anrik Singh, Arty  
 (IC-72046Y) Ramesh Kumar Das, Inf  
 (IC-72047F) Ajeet Chouksey, AAD  
 (IC-72048K) Bhupesh Gururani, Arty  
 (IC-72049M) Vikash Kumar Singh, Inf  
 (IC-72050F) Arun Kumar, Arty  
 (IC-72051K) Ankush Singh Gahlot, Arty  
 (IC-72052M) Laju KR, AVN  
 (IC-72053P) Vishal Raj, AOC  
 (IC-72054X) More Chetan Annasaheb, AC  
 (IC-72055A) Pradeep Kumar, Inf  
 (IC-72056H) Kaveriappa CM, Inf  
 (IC-72057L) Varun Dhingra, Inf  
 (IC-72058N) Kapure Prasad Jeevan, Int  
 (IC-72059W) Raj Kumar Sharma, Inf  
 (IC-72060L) Sunil Kumar Pandey, Inf  
 (IC-72061N) Karan Thapar, Inf  
 (IC-72062W) Kshatriya Ganeshsingh Harinathsingh, ASC  
 (IC-72063Y) Manish Kumar Pandey, AOC  
 (IC-72064F) Ashutosh Pant, Inf  
 (IC-72065K) Vishal Dogra, Engrs  
 (IC-72066M) Viraj Dinesh Chandra, Arty  
 (IC-72067P) Samir Tangri, Engrs  
 (IC-72068X) Kshitij Salwan, Inf  
 (IC-72069A) Ajit Kumar Rout, Inf  
 (IC-72070P) Dinesh Kumar, Inf

(IC-72071X) Prashant Prakash, Inf  
 (IC-72072A) Vijay Choudhary, AC  
 (IC-72073H) Alok Singh Bhandari, Engrs  
 (IC-72074L) Himanshu Sharma, Inf  
 (IC-72075N) Deshmukh Nishant Girish, Arty  
 (IC-72076W) Pradeesh M P, Mech  
 (IC-72077Y) Gaurav Tripathi, AAD

NILESH CHOWDHARY  
 Lt Col  
 AMS 8B

#### ARMY BRANCH

No. 388, dated 22nd Jun 2010—The President is pleased to make the following appointments:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

The undermentioned 43 (Forty Three) Gentleman Cadets of 108 Technical Graduates Course (TGC) and 17A University Entry Scheme (UES) Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) or 'U' (denoting UES) are granted Permanent Commission in the rank of Lieutenant wef 12 Dec 2009 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended (TGC) and AI 2/93, as amended (UES). They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 12 Dec 2007 under SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course and AI 2/93, as amended for GCs of UES Course:—

IMA No., Name, IC No. & Arm/Service

(T/6615) Iqbaljit Singh (IC-72151P) Engrs  
 (T/6621) Pranay Deep (IC-72152X) EME  
 (T/6605) Abhimanyu Samyal (IC-72153A) Engrs  
 (T/6622) Sreenivas N K (IC-72154H) EME  
 (T/6616) Rupinder Singh Bhamra (IC-72156N) Sigs  
 (T/6619) Pradeep Singh (IC-72157W) Sigs  
 (T/6614) Praveen Kumar (IC-72158Y) EME  
 (T/6626) Abhimanyu Rathee (IC-72159F) Engrs  
 (T/6617) Vikram Balhara (IC-72160W) Sigs  
 (T/6587) Joy Shankar Mitra (IC-72161Y) Engrs  
 (T/6628) Enoch Daniel Ganaolivu (IC-72162F) Engrs  
 (T/6604) S Raja Durai (IC-72163K) Sigs  
 (T/6613) Gursimran Deep Singh (IC-72164M) Engrs  
 (T/6618) Ganesh Bahadur Chhetri (IC-72165P) Inf  
 (U/922) Lalit Keshore Chahali (IC-72166X) Engrs

(T/6606) Chetan Nanda (IC-72167A) EME  
 (U/915) Gaurav Kumar (IC-72168H) EME  
 (T/6599) Naveen Sharma (IC-72169L) Engrs  
 (T/6610) Rahul Tomar (IC-72171H) Sigs  
 (T/6630) E Iatiplang Thongni (IC-72172L) Engrs  
 (T/6609) Shivendra Singh Attri (IC-72173N) Engrs  
 (U/759) Piyush Sharma (IC-72174W) EME  
 (U/909) Sushil Singh (IC-72175Y) EME  
 (U/883) Anirban Basu (IC-72176F) Engrs  
 (T/6603) Ranjith K R (IC-72177K) Engrs  
 (T/6631) Amit Arya (IC-72178M) Engrs  
 (U/908) Krishna Prasad (IC-72179P) Engrs  
 (U/894) Sunil Bhakat (IC-72180K) Sigs  
 (T/6629) Amar Kumar (IC-72181M) EME  
 (T/6623) Alok Awasthi (IC-72182P) Sigs  
 (T/6624) Pavan K V (IC-72184A) EME  
 (U/940) Bhupendra Charak (IC-72185H) Sigs  
 (U/876) Govind S (IC-72186L) Sigs  
 (T/6594) Rajesh Semwal (IC-72187N) EME  
 (T/6595) Aditya Kumar Bhanot (IC-72188W) Engrs  
 (U/859) Ram C (IC-72189Y) Engrs  
 (T/6627) G Yogendra Kumar Reddy (IC-72191W) EME  
 (U/913) Krishan Kumar (IC-72193F) Sigs  
 (T/6620) Harminder Singh (IC-72194K) Sigs  
 (U/874) Navin Kumar Mishra (IC-72195M) Engrs  
 (T/6632) Jeewandeep Singh Trehan (IC-72196P) Engrs  
 (U/906) Bhanu Sharma (IC-72197X) Engrs  
 (U/893) Rishi Raj Tiwari (IC-72198A) EME

The following 02 (Two) officers are also granted permanent commission in the rank of Lieutenant wef 12 Dec 2009 under the terms and conditions of AI 105/61:—

(T/6600) Iyer Manoj Balakrishnan (IC-72155L) AEC  
 (T/6612) Radha Krishna (IC-72170A) AEC

#### SHORT SERVICE COMMISSION (on probation)

The undermentioned 16 (Sixteen) GCs of 107 Technical Graduates Course (TGC) and 17 University Entry Scheme (UES) are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names under the provisions of SAI 1/S/94, as

amended for GCs of TG Course and AI 2/93, as amended for GCs of UES Course:—

IMA No., Name, SS No., Arm/Service & Date of SSC (on probation)

107 Technical Graduates Course

(T/6587) Joy Shankar Mitra (SS-43510P) EME, 16 Jul 2008

(T/6594) Rajesh Semwal (SS-43517Y) Sigs, 16 Jul 2008

(T/6595) Aditya Kumar Bhanot (SS-43518F) EME, 16 Jul 2008

17 University Entry Scheme Course

(U/859) Ram C (SS-43532N) EME, 01 Jul 2007

(U/874) Navin Kumar Mishra (SS-43547W) EME, 06 Aug 2007

(U/876) Govind S (SS-43549F) Sigs, 16 Jul 2008

(U/883) Anirban Basu (SS-43556X) Engrs, 01 Jul 2007

(U/893) Rishi Raj Tiwari (SS-43566F) EME, 16 Jul 2008

(U/894) Sunil Bhakat (SS-43567K) Sigs, 16 Jul 2008

(U/906) Bhanu Sharma (SS-43579Y) EME, 03 Jul 2007

(U/908) Krishna Prasad (SS-43581W) Engrs, 16 Jul 2008

(U/909) Sushil Singh (SS-43582Y) EME, 01 Aug 2007

(U/913) Krishan Kumar (SS-43586P) Engrs, 16 Jul 2008

(U/915) Gaurav Kumar (SS-43588A) Sigs, 16 Jul 2008

(U/922) Lalit Keshore Chahali (SS-43595W) EME, 16 Jul 2008

(U/940) Bhupendra Charak (SS-43613N) EME, 01 Jul 2007

The Arms/Services allotted to the GCs are valid for the duration of their training only.

The undermentioned 26 (Twenty Six) GCs of 108 Technical Graduates Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of thier precommissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lieutenant with effect from the dates shown against their names, under the provisions of SAI 1/S/94, as amended:—

IMA No., Name, SS No., Arm/Service & Date of SSC (on probation)

108 Technical Graduates Course

(T/6599) Naveen Sharma (SS-43797X) Sigs, 14 Jan 2009

(T/6603) Ranjith K R (SS-43800M) EME, 14 Jan 2009

(T/6604) S Raja Durai (SS-43801P) Sigs, 14 Jan 2009

(T/6605) Abhimanyu Samyal (SS-43802X) Sigs, 14 Jan 2009

(T/6606) Chetan Nanda (SS-43803A) Engrs, 14 Jan 2009

(T/6609) Shivendra Singh Attri (SS-43806N) Sigs, 14 Jan 2009

(T/6610) Rahul Tomar (SS-43807W) Sigs, 14 Jan 2009

(T/6613) Gursimran Deep Singh (SS-43808Y) Engrs, 14 Jan 2009

(T/6614) Praveen Kumar (SS-43809F) EME, 14 Jan 2009

(T/6615) Iqbaljit Singh (SS-43810W) Sigs, 14 Jan 2009

(T/6616) Rupinder Singh Bhamra (SS-43811Y) Sigs, 14 Jan 2009

(T/6617) Vikram Balhara (SS-43812F) Sigs, 14 Jan 2009

(T/6618) Ganesh Bahadur Chhetri (SS-43813K) EME, 14 Jan 2009

(T/6619) Pradeep Singh (SS-43814M) Engrs, 14 Jan 2009

(T/6620) Harminder Singh (SS-43815P) Sigs, 14 Jan 2009

(T/6621) Pranay Deep (SS-43816X) Sigs, 14 Jan 2009

(T/6622) Sreenivas N K (SS-43817A) Engrs, 14 Jan 2009

(T/6623) Alok Awasthi (SS-43818H) Sigs, 14 Jan 2009

(T/6624) Pavan K V (SS-43819L) Sigs, 14 Jan 2009

(T/6626) Abhimanyu Rathee (SS-43821H) EME, 19 Jan 2009

(T/6627) G Yogendra Kumar Reddy (SS-43822L) Engrs, 28 Jan 2009

(T/6628) Enoch Daniel Gnanaolivu (SS-43823N) Sigs, 02 Feb 2009

(T/6629) Amar Kumar (SS-43824W) Sigs, 11 Feb 2009

(T/6630) E Iatiplang Thongni (SS-43825Y) EME, 11 Feb 2009

(T/6631) Amit Arya (SS-43826F) EME, 24 Feb 2009

(T/6632) Jeewandeep Singh Trehan (SS-43827K) Sigs, 24 Feb 2009

The Arms/Services allotted to the GCs are valid for the duration of their training only.

The undermentioned 01 (One) GC of 16 University Entry Scheme (UES) is granted Short Service Commission (on probation) for the period of his training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against his name under the provisions of AI 2/93, amended:—

IMA No., Name, SS No., Arm/Service & Date of SSC (on probation)

(U/759) Piyush Sharma (SS-43091H) Sigs, 16 Jul 2007

The Arm/Service allotted to the GC is valid for the duration of his training only.

### SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt

The undermentioned 19 Officers of SSCW (NT)-02 Course have completed Special Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 19 Sep 2009. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 19 Sep 2009 under the provisions of SAI 1/S/92, as amended, read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006:—

SS No., Name & Arm/Service  
 (SS-43617K) Shuchi Durgapal, AVN  
 (SS-43619P) More Pranita Jaysing, AAD  
 (SS-43621M) Sruthi Nair, ASC  
 (SS-43627N) Inbir Kour, INT  
 (SS-43628W) Anita Kumari, ASC  
 (SS-43637X) Kalpana Bohra, ASC  
 (SS-43647F) Pallavi Sharma, EME  
 (SS-43651K) Neha Chopra, ASC  
 (SS-43674L) Pooja Yadav, ASC  
 (SS-43689N) Uma Yadav, INT  
 (SS-43691L) Pratiksha Rana, INT  
 (SS-43700F) Deepshikha Rana, AVN  
 (SS-43703P) Kavita, ASC  
 (SS-43724L) Shivani Parmar, ASC  
 (SS-43727Y) Kanchan Joshi, ASC  
 (SS-43746K) Kamlesh Kumari, ASC  
 (SS-43748P) Konika Sinha, EME  
 (SS-43767A) Rubina Kaur Keer, INT  
 (SS-43772L) Chhavi Sharma, ASC

The undermentioned 10 officers of SSCW (Tech)-02 Course were granted Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the terms and conditions of SAI 1/S/92, as amended read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 for SSCOs (Women-Tech). Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of 10 years wef 19 Sep 2009. They have also been granted two years ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 22 Sep 2007 under the provisions

of AI 10/96 (Corrigendum No 9 dated 01 Jun 96 to SAI 1/S/92:—

SS No., Name & Arm/Service  
 (SS-43781M), Harjot Kaur, EME  
 (SS-43783X), Roop Kunwar Nirban, EME  
 (SS-43784A), Manali Shrivastava, Sigs  
 (SS-43785H), Smriti Jha, Sigs  
 (SS-43786L), Shrutika Dutta, EME  
 (SS-43787N), Loharekar Girija Laxmikant, Sigs  
 (SS-43789Y), Gazelle Satuti Sareen, EME  
 (SS-43792Y), Bushra Jaeree, EME  
 (SS-43793F), Parte Pradnya Jayavant, EME  
 (SS-43794K), R Sandhya, Sigs

RAHUL SHARMA  
 Lt Col  
 AMS-8B

### ARMY BRANCH

No. 389, dated 22nd Jun 2010—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 as amended:—

### REGULAR ARMY

### PERMANENT COMMISSION

To be Surg Sub Lt (On Prob)

Anita M (MR-08832W), AMC, 05 Mar 2009  
 Abhish Mohan (MR-08847Y), AMC, 05 Mar 2009

YASH PANDE  
 Brig  
 Dy DGAFMS (HR)

### AIR HEADQUARTERS

No. 390, dated 22nd Jun 2010—The Competent Authority is pleased to appoint undermentioned Assistants of AFHQ Civil Service as Officiating Section Officer (Group 'B' Gazetted, Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- Grade Pay) under rule 7(8) of AFHQ Civil Services Rules 2001, for the period as shown against their names or till such time the individual retires or till regular incumbents become available, whichever is earlier:—

Name and Promotion Date

Sanjay Nandi, 27 Nov 2009/26 May 2010

GK Varun, 27 Nov 2009/26 May 2010

RS Kaim, 27 Nov 2009/26 May 2010

SM Madan, 27 Nov 2009/26 May 2010

Subhash Chander, 31 Dec 2009/26 May 2010

ON Sharma, 31 Dec 2009/26 May 2010

CL Dhamija, 31 Dec 2009/26 May 2010

Suresh Kumar Dewan, 08 Feb 2010/26 May 2010

Sneh Late Tuli, 08 Feb 2010/26 May 2010

These appointments are made purely as stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

A K LAROIYA

Dy Chief Administrative Officer

### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 391, dated 23rd Jun 2010—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'C' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of one year with effect from the dates shown against their names in the Pay Scale of Rs. 15,600–39,100/- (Pay Band-3) + Rs. 6,600/- (Grade Pay) :—

| PIN No.    | Name                        | Estt./Lab       | Date of Joining |
|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 2009AC1031 | Dr. (Ms) Pritam Sangwan     | CFEES, Delhi    | 23.09.2009      |
| 2009AC1047 | Dr. Thomas N Abraham        | DL, Jodhpur     | 13.04.2009      |
| 2009AC1026 | Dr. Ravindra Singh          | DL, Jodhpur     | 29.09.2009      |
| 2009AC1032 | Dr. (Smt.) Shiby Varghese K | DFRL, Mysore    | 25.11.2009      |
| 2009AC1018 | Dr. Sumai Kant Joshi        | DIBER, Haldwani | 09.09.2009      |
| 2009AC1015 | Dr. Sepat Naval Kishore     | DIHAR, Leh      | 16.09.2009      |
| 2008AC1037 | Dr. (Ms) Shubha Shukla      | DIPAS, Delhi    | 30.12.2008      |
| 2009AC1036 | Dr. (Mrs.) Pankaj Khurana   | DIPAS, Delhi    | 11.11.2009      |
| 2009AC1019 | Dr. Suresh Kumar            | DIPR, Delhi     | 24.08.2009      |
| 2009AC1014 | Dr. Mohd Imran Khan         | DIPR, Delhi     | 07.09.2009      |
| 2009AC1012 | Dr. Anurag Pandey           | DRL, Tezpur     | 31.08.2009      |
| 2009AC1013 | Dr. Gaurav Agnihotri        | DRL, Tezpur     | 14.09.2009      |
| 2009AC1017 | Dr. Kulbhushan Sharma       | DRDE, Gwalior   | 09.09.2009      |

|            |                         |                  |            |
|------------|-------------------------|------------------|------------|
| 2009AC1043 | Dr. (Ms) Arti Pant      | HEMRL, Pune      | 18.11.2009 |
| 2009AC1003 | Dr. Yogesh Kumar Verma  | INMAS, Delhi     | 21.08.2009 |
| 2009AC1038 | Dr. Yogesh Chand Nagar  | SASE, Manali     | 15.09.2009 |
| 2009AC1041 | Maj (Retd.) Subeesh NS  | SPIC, Delhi      | 11.05.2009 |
| 2009AC1030 | Dr. (Smt.) Preeti Verma | SSPL, Delhi      | 24.09.2009 |
| 2009AC1029 | Dr. (Smt.) Anubha Jain  | SSPL, Delhi      | 01.10.2009 |
| 2008AC1030 | Dr. K Jagadeswara Reddy | SSPL, Delhi      | 23.07.2008 |
| 2009AC1042 | Dr. E Porpatham         | VRDE, Ahmednagar | 17.09.2009 |

2. The name and other details appearing at Sr No. 4 DGN No. DOP/08/86708/DGN/Sc 'C' dt 04 Aug 2009 in respect of Dr. K Jagadeswara Reddy (Sr No. 20 above) may be treated as deleted.

NARSINGH SAHU  
Jt Dir (Pers)

No. 392, dated 23rd Jun 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officers to relinquish the Short Service Commission in the Army Dental Corps wef 25 Aug 2009 and to grant them Permanent Commission in the Army Dental Corps from the same date under AI 37/78 as amended :—

### REGULAR ARMY ARMY DENTAL CORPS (PERMANENT COMMISSION)

Maj Abhijeet Ashok Kadu (DR-10632Y) 25 Aug 2009 with seniority for Pay, Promotion & pension from 05 Jun 2003

Capt Kamal Verma (DR-10633F) 25 Aug 2009 with seniority for pay, promotion & pension from 07 Apr 2005

Capt Serat Rehman (DR-10634K) 25 Aug 2009 with seniority for pay, promotion & pension from 18 Apr 2005

Capt Reenesh M (DR-10635M) 25 Aug 2009 with seniority for pay, promotion & pension from 25 May 2005

Capt Harshavardhana B (DR-10636P) 25 Aug 2009 with seniority for pay, promotion & pension from 25 May 2005

Capt Kumara Sundaram R (DR-10637X) 25 Aug 2009 with seniority for pay, promotion & pension from 26 May 2005

Capt Narender Singh (DR-10638A) 25 Aug 2009 with seniority for pay, promotion & pension from 01 Jun 2005

Capt Madhul Singhal (DR-10639H) 25 Aug 2009 with seniority for pay, promotion & pension from 21 Jul 2005

Capt Dhruv Dubey (DR-10640X) 25 Aug 2009 with seniority for pay, promotion & pension from 10 Nov 2005 but not for gratuity

Capt Sudarshan VS Bhat (DR-10641A) 25 Aug 2009 with seniority for pay, promotion & pension from 10 Mar 2006

Capt Thiruvalluvan N (DR-10642H) 25 Aug 2009 with seniority for pay, promotion & pension from 11 Mar 2006

Capt Rajshekhar D Gaded (DR-10643L) 25 Aug 2009 with seniority for pay, promotion & pension from 21 Mar 2006

Capt (Ms) Pushpa Kumari (DR-10644N) 25 Aug 2009 with seniority for pay, promotion & pension from 23 Mar 2006

Capt Amrit Thapa (DR-10645W) 25 Aug 2009 with seniority for pay, promotion & pension from 01 Feb 2007

Capt A Navin Kumar (DR-10646Y) 25 Aug 2009 with seniority for pay, promotion & pension from 21 Mar 2007

MAHESH CHANDER  
Maj Gen  
Addl DGDS

#### ARMY BRANCH

No. 393, dated 23rd Jun 2010—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and date specified :—

#### REGULAR ARMY

#### DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Sub Maj (GD)

Sub Maj Joginder Singh (JC-220798X), Formerly JAK Rif, 25 Apr 2009

Sub Maj K Kumaresan (JC-210328Y), Formerly MEG, 30 Apr 2009

In the rank of Sub (GD)

Sub Bas Ram Jat (JC-264475P), Formerly Arty, 22 Dec 2008

Sub Mohd Ibrahim (JC-592164W), Formerly JAK LI, 25 Apr 2009

Sub N Kanakaraj (JC-371324N), Formerly Signals, 25 Apr 2009

Sub Tilak Bahadur GC (JC-629544P), Formerly 9 GR, 25 Apr 2009

Sub Suresh Kumar A (JC-297976P), Formerly AAD, 13 Jul 2009

In the Rank of Nb Sub (GD)

Naib Sub Harjit Singh (JC-428633X), Formerly Punjab Regt, 22 Dec 2008

Naib Sub Kalyan Singh (JC-539358X), Formerly Kumaon Regt, 22 Dec 2008

Naib Sub Tarlochan Singh (JC-429868W), Formerly Punjab Regt, 14 Jul 2009

PRADEEP KUMAR  
Under Secy

#### DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT

#### (DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION)

No. 394, dated 23rd Jun 2010—The President is pleased to make the following promotion :—

Acting Lt Col to Substantive Lt Col

No. Rank & Name, Subs Rank to be Granted from

IC-40423 Lt Col RS Verma, EME, 12 Jun 1998

N MARIAPPAN  
Addl Dir (Pers)  
for DG Research & Development

#### ARMY BRANCH

No. 395, dated 24th Jun 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### (ARMY MEDICAL CORPS)

Lt Col/Col (TS) (& equivalent) to be Col selection (& equivalent)

S N Tiwari (NTR-16589Y), 01 Nov 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 May 2009

S S More (NTR-16547M), 01 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Nov 2009

Wg Cdr/Gp Capt (TS) to be Gp Capt  
(Selection & equivalent)

M S Sridhar (MR-05526W) (AF-18696), 12 Aug 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jun 2009

Jaldir Singh (MR-07142A) (AF-19370), 14 Sep 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Aug 2009

GS Sethi (MR-05810M) (AF-19368), 03 Nov 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Aug 2009

T Roy (MR-05659M) (AF-19332), 12 Oct 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 19 Sep 2009

S Sharma (MR-06496W) (AF-19320), 01 Nov 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 24 Sep 2009

Maj to be Lt Col

A T Atal (MR-06875M), AMC, 08 Jan 2008

Amit Rai (MR-07108A), AMC, 20 Jan 2010

Subir Dey (MR-07111A), AMC, 20 Jan 2010

Rajesh Uddandam (MR-07116Y), AMC, 20 Jan 2010

J S Randhawa (MR-07117F), AMC, 20 Jan 2010

Suraj Gupta (MR-06972K), AMC, 06 Jan 2009

SK Nanda (MR-06974P), AMC, 06 Jan 2009

Mahima Lall (MR-07070F), AMC, 20 Jan 2010

Arun Hegde (MR-07078N), AMC, 20 Jan 2010

Sudhin Kurien (MR-07023K), AMC, 30 Jun 2009

Manoj Kumar Singh (MR-08471H), AMC, 09 Jan 2010

Raji K (MR-07076H), AMC, 20 Jan 2010

Reema Kumar (MR-07073P), AMC, 20 Jan 2010

Anurag Khera (MR-07080L), AMC, 20 Jan 2010

Manoj Gopinath (MR-07071K), AMC, 20 Jan 2010

Pranati Swain (MR-07095N), AMC, 20 Jan 2010

AC Nishil (MR-07121K), AMC, 20 Jan 2010

Rama Gupta (MR-07122M), AMC, 21 Jan 2010

Bewal Nitul Mohan (MR-08086L), AMC, 22 Jan 2010

Ajay Sebastian Carvalho (MR-07818X), AMC, 27 Jan 2010

Ashish Bahal (MR-07083Y), AMC, 20 Jan 2010

Shijith KP (MR-07084F), AMC, 20 Jan 2010

Shikhar Gaur (MR-07998L), AMC, 22 Jan 2010

Nirupam Roy (MR-07817P), AMC, 30 Jan 2010

Deepak Dwivedi (MR-07820P), AMC, 01 Feb 2010

Arindam Mukherjee (MR-07086M), AMC, 20 Jan 2010

Archana Apoorva (MR-07089A), AMC, 20 Jan 2010

B Chekunnath (MR-07094L), AMC, 20 Jan 2010

B Vasudevan (MR-07096W), AMC, 20 Jan 2010

Sqn Ldr to be Wg Cdr

Yashvir Singh Dahiya (MR-07835X) (AF-25551F), AMC, 15 Jan 2010

Pallavi Goswami (MR-08443W) (AF-26498F), AMC, 21 Jan 2010

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

Maneel Patel (MR-07819A) (75659), AMC, 06 Feb 2010

To be Maj

Rakesh Kumar Gautam (MS-15393Y) (MR-08937A), AMC, 22 Sep 2008 (MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Surg Lt Cdr

K Ananth Kini (MS-14393M/75796N) (MR-08616H), AMC, 18 Aug 2005 (MoD Notification published in Gazette of India dated 11 Nov 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Amit Kumar Agrwal (MR-08760X) (75904H), AMC, 16 Dec 2009

Somnath Pan (MR-08132H) (75868A), AMC, 27 Dec 2009

Seerat Pal (MR-08160P) (75870F), AMC, 27 Dec 2009

Abhishek Kumar Sharma (MR-08183W) (75873N), AMC, 27 Dec 2009

Flt Lt to be Sqn Ldr

Pankaj Rai (MR-08065H) (AF-27647S), AMC, 30 Dec 2008

To be Flt Lt

Prashant Pratim Padhi (MR-08705F) (AF-30044K), 19 Aug 2009

To be Capt

Shailesh Mogra (MR-14932X) (MR-8934M), AMC, 27 Dec 2005 on Completion of Internship

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 May 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS(HR)

## ARMY BRANCH

No. 396, dated 24th Jun 2010—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

IC No., Name, Arm & Subs Maj wef  
 IC-63450 Ujjwaldeep Singh Soora, Arty, 13 Dec 2009  
 IC-63475 Anil Kumar Yadav, Arty, 13 Dec 2009  
 IC-65286 Rajesh Kumar, Inf, 03 Nov 2008  
 IC-65431 GC Chakradhar, Arty, 01 May 2008  
 IC-65472 Harvinder Singh, Inf, 01 May 2009  
 IC-65476 Abhishek Misra, Inf, 01 May 2009  
 IC-65478 Praveen Kumar Dubey, Inf, 01 May 2009  
 IC-65485 Avneet Singh Mehta, Mech Inf, 01 May 2009  
 IC-66042 Jiju Varghese, EME, 20 Apr 2008

## SHORT SERVICE COMMISSION (WSES)

Lt to be Capt

WS No., Name, Arm, Seniority Course, Revised date of Seniority for Promotion & Date of Promotion for Substantive Capt

WS-00600 Rishma Sarin, ASC, 01 Sept 01, WSES(O)-18 (NT), 01 Sep 02, 16 Dec 04

JASWANT SINGH

Jt Dir  
MS-8C

## ARMY BRANCH

No. 397, dated 24th Jun 2010—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
DEFENCE SECURITY CORPS

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Gurpal Singh (JC-428182H), 01 Feb 2010  
 Sub K Kumaresan (JC-210328Y), 01 Feb 2010  
 Sub S Nadarajan (JC-840477Y), 01 Feb 2010  
 Sub Raja K (JC-235532H), 01 Mar 2010  
 Sub Duni Chand (JC-840518X), 01 Mar 2010

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Birendra Kumar Sinha (JC-750574P), 01 Feb 2010  
 Nb Sub Nan Bahadur (JC-841406K), 01 Mar 2010  
 Nb Sub Ramesh Kumar (JC-841424M), 01 Mar 2010

Nb Sub Hoshier Singh (JC-578263N), 01 Mar 2010

Nb Sub Jog Raj Kapoor (JC-428325X), 01 Mar 2010

Nb Sub Biswanath Maiti (JC-661770A), 01 Mar 2010

Nb Sub Chok Bahadur (JC-578162A), 01 Mar 2010

To be Nb Sub (GD)

Hav Phulal Singh (No. 3974328P now JC-842658H), 10 Mar 2010\*

Hav R Manogaran (No. 10357824X now JC-842674A), 06 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allces)

Hav Prem Chand (No. 10478849M now JC-842698K), 18 Feb 2010\*\*

Hav Ajit Raj (No. 10361049H now JC-842706X), 04 Mar 2010\*\*

\*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allces)

Hav Jaram Singh (No. 10360685K now JC-842713N), 02 Mar 2010\*\*\*

Hav Nar Bdr Thapa (No. 5040602L now JC-842717K), 23 Feb 2010\*\*\*

Hav Ram Dulare Tiwari (No. 14340615H now JC-842720K), 01 Feb 2010\*\*\*

Hav Jai Bhagwan (No. 1053136F now JC-842722P), 19 Feb 2010\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allces)

Hav Babu Singh Shekhawat (No. 2870159W now JC-842725H), 04 Mar 2010\*\*\*\*

Hav Ranbir Singh (No. 5844669H now JC-842726L), 01 Mar 2010\*\*\*\*

Hav Chanchal Singh (No. 10361066H now JC-842727N), 02 Mar 2010\*\*\*\*

Hav Bal Govind Kurmi (No. 10388967Y now JC-842728W), 02 Mar 2010\*\*\*\*

Hav Prakash Chhetri (No. 5841862K now JC-842731W), 01 Mar 2010\*\*\*\*

Hav Kali Charan (No. 10435802N now JC-842733F), 01 Mar 2010\*\*\*\*

Hav Krishana Kumar (No. 10478779Y now JC-842734K), 01 Mar 2010\*\*\*\*

Hav Radha Krishnan Pillai (No. 10358328H now JC-842735M), 01 Mar 2010\*\*\*\*

Hav Shankar Singh (No. 14460044L now JC-842737X), 04 Mar 2010\*\*\*\*

Hav Sukhdev Singh (No. 4457626H now JC-842738A),  
01 Mar 2010\*\*\*\*

Hav Yem Bahadur Gurung (No. 1402862F now JC-842739H),  
01 Mar 2010\*\*\*\*

Hav Tulsi Ram Singh Tomar (No. 2971311A now JC-842740X), 03 Mar 2010\*\*\*\*

\*\*\*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allces)

PRADEEP KUMAR  
Under Secy

No. 398, dated 24th Jun 2010—The President is pleased to make the following Appointments/Promotions:—

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR  
BRANCH**

To be Sub Master Tech Comn

Nb Sub Ramesh Chandra (JC-759014K), 15 Jan 2010/01 Jan 2010\*

To be Sub Master Tech A-Veh

Nb Sub Anand Ram (JC-758904X), 01 Feb 2010

Nb Sub P Sekar (JC-758905A), 01 Feb 2010

Nb Sub Shri Krishan Sharma (JC-758906H), 01 Feb 2010

Nb Sub Bijender Kumar (JC-758908N), 01 Feb 2010

Nb Sub Ombir (JC-758909W), 01 Feb 2010

Nb Sub Ravindran N (JC-758910L), 01 Feb 2010

Nb Sub Amar Singh (JC-758911N), 01 Feb 2010

Nb Sub Mahadik Kalidas Krishna (JC-758912W), 01 Feb 2010

Nb Sub Bijender Singh (JC-758913Y), 01 Feb 2010

Nb Sub Hirave Prakash Vasant (JC-759003X), 01 Feb 2010

Nb Sub Anil Kumar K (JC-758971H), 01 Feb 2010

To be Sub AVN Tech (AF)

Nb Sub Banka Ram (JC-762130X), 01 Feb 2010

To be Sub Master Tech AVN (AEN)

Nb Sub KV M Sreenivasa Rao (JC-758289L), 01 Feb 2010

To be Sub Master Tech I & P

Nb Sub Nagendra Singh (JC-758565H), 01 Feb 2010

To be Sub Welder

Nb Sub Budha Ram (JC-760671A), 01 Feb 2010

Nb Sub Shashi Kant Pandey (JC-760598M), 01 Feb 2010

To be Sub Clk (SD)

Nb Sub Abhimanyu Parida (JC-759374A), 06 Jan 2010/  
01 Jan 2010\*

Nb Sub Lalji Yadav (JC-759479K), 05 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Nb Sub Vijaya Narayan Chaturvedi (JC-759480Y), 01 Feb 2010

Nb Sub M D Aslam (JC-759481F), 01 Feb 2010

Nb Sub Ramesh Raj (JC-759485X), 01 Feb 2010

Nb Sub Rana Pratap Singh (JC-759486A), 01 Feb 2010

Nb Sub Ram Karan Yadav (JC-759580K), 01 Feb 2010

To be Sub SKT

Nb Sub Padam Singh Sirohi (JC-760902L), 01 Feb 2010

Nb Sub Rajendra Prasad Singh (JC-760761F), 01 Feb 2010

Nb Sub Mohim Chandra Nath (JC-760762K), 01 Feb 2010

Nb Sub Ramphal (JC-760905Y), 01 Feb 2010

To be Sub Dvr (MT)

Nb Sub Yogendar Singh (JC-760942M), 23 Jun 2009

To be Sub Auto Tech B Veh

Nb Sub Arvind Kumar Singh (JC-761304A), 21 Jan 2010/  
23 Jun 2009\*

To be Sub Master Tech Radar

Nb Sub Vijay Prasad (JC-757904L), 01 Aug 2008

To be Sub RT Pandit

Nb Sub Anil Kumar (JC-753875K), 08 Feb 2010/01 Feb 2010\*

To be Sub Master Tech Elect

Nb Sub Gangadharan V V (JC-759171W), 15 Feb 2010/  
01 Feb 2010\*

Nb Sub MD Jaseem Parvez Khan (JC-759023L), 08 Feb 2010/01 Feb 2010\*

To be Sub Master Tech B-Veh

Nb Sub Lalan Prasad (JC-758916M), 09 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Nb Sub Suresh S (JC-758918X), 08 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Nb Sub Dinesh Kumar Joshi (JC-758919A), 08 Feb 2010/  
01 Feb 2010\*

Nb Sub Prabhu Ram Mosal Puri (JC-759004A), 10 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Nb Sub Taher Ali Khan (JC-759006L), 13 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Nb Sub Narendra Rout (JC-759009Y), 11 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Nb Sub Sohan Lal Bishnoi (JC-759010N), 11 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Nb Sub Ranjit Singh (JC-759030FX), 18 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Nb Sub Madhu Sudhan Dogra (JC-759035A), 15 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Nb Sub Keshab Chandra Sen (JC-759039W), 15 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Nb Sub Sankar Kumar Das (JC-759047P), 16 Feb 2010/01 Feb 2010\*

To be Sub Master Tech Opto

Nb Sub Amrish Kumar Tyagi (JC-758889N), 08 Feb 2010/01 Feb 2010\*

To be Sub Tech (SA)

Nb Sub Gopal Singh (JC-760226F), 16 Feb 2010/01 Feb 2010\*

To be Sub Master Tech (INP)

Nb Sub Raj Singh (JC-758286X), 06 Feb 2010/01 Feb 2010\*

To be Sub Master Tech (AF)

Nb Sub Pawar Arun Sadashiv (JC-759160K), 06 Feb 2010/01 Feb 2010\*

To be Sub Master Tech (ELE)

Nb Sub Raghunath Jena (JC-758448X), 13 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Nb Sub Ram Kishore (JC-759233L), 13 Feb 2010/01 Feb 2010\*

To be Sub Master Tech (AEN)

Nb Sub Akiri Srinivasa Rao (JC-758511F), 13 Feb 2010/01 Feb 2010\*

Nb Sub Indrajeet Singh (JC-759604H), 13 Feb 2010/01 Feb 2010\*

\*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 399, dated 25th Jun 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY ARMED CORPS RECORDS

To be Nb Ris

Dfr (Dvr/Gnr) Lal Chand (No. 1087780A now JC-244092F), 22 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Bhawani Singh (No. 1087902Y now JC-244094M), 22 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Dasappa Poojary N (No. 1089072M now JC-243955L), 05 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Raj Kumar (No. 1089877K now JC-243950M), 24 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Anil Kumar (No. 1098586L now JC-243951P), 24 Dec 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Rajendra Singh (No. 15461492A now JC-244018A), 07 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Kameshwar Prajapa (No. 15461370W now JC-244085L), 28 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 18 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Rashpal Singh (No. 1086376Y now JC-244043Y), 01 Jan 2010

Dfr (Dvr/Opr) Rashpal Singh (No. 1089035Y now JC-244047P), 01 Jan 2010

Dfr (Opr/Dvr) Mustak Ahmed Ansa (No. 1089077L now JC-244050P), 22 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Sibram Dash (No. 1089203M now JC-244042W), 05 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Sanjai Kumar Singh (No. 1089922L now JC-244102A), 20 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Deepak Kumar (No. 1098966K now JC-244075F), 12 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Desh Raj (No. 1099758F now JC-244031K),  
01 Jan 2010

Dfr (Gnr/Opr) Azad Singh (No. 1099092N now JC-244111F),  
26 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Bhagwan Singh (No. 15463134N now JC-  
244064P), 14 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Shiv Chand (No. 15463531M now JC-  
244066A), 14 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Amrit Lal (No. 1088500N now JC-244010N),  
19 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Vithal Kunderagi (No. 15477924N now JC-  
244109K), 27 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 21 Nov 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Om Prakash (No. 1087690Y now JC-  
244097A), 18 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Dalip Singh (No. 1084170H now JC-244107Y),  
19 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Dhruv Singh (No. 1089492M now JC-  
244104L), 18 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Pawan Kumar (No. 15461942M now JC-  
244086N), 14 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Gurdev Singh (No. 15462598Y now JC-  
244062K), 23 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Anand Singh Mahar (No. 15462774L now  
JC-244087W), 14 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Ved Prakash (No. 1099689W now JC-  
244115X), 01 Feb 2010

Dfr (Dvr/Opr) Sham Singh (No. 1088953Y now JC-  
244069N), 14 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Thota Ramanaiah (No. 1099425P now JC-  
244080M), 14 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 05 Aug 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Khedkar Nivrutti B (No. 1099528N now JC-  
244081P), 14 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Satwinder Singh (No. 1088723L now JC-  
244093K), 16 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Navin Kumar Bhatia (No. 15461161Y now  
JC-244082X), 16 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Raj Pal (No. 1088376X now JC-243962F),  
05 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Ridh Karan Jat (No. 1099004M now JC-  
244096X), 09 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Dhola Ram Rawat (No. 15461246P now JC-  
244083A), 14 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 06 Nov 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Upendra Choudharyh (No. 15461266H now  
JC-244084H), 23 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Rameshwer Prasad (No. 1089395P now JC-  
244063M), 07 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Indraj Singh Gurja (No. 1098853F now JC-  
243918X), 01 Jan 2010

Dfr (Dvr/Opr) Vinod Kumar (No. 1099323Y now JC-  
244106W), 09 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Desh Raj (No. 15461140H now JC-244089F),  
14 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Subhash Kumar (No. 1546180P now JC-244088Y), 14 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Ram Murat Singh YA (No. 15461363A now JC-244090W), 14 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Khiv Singh Naruka (No. 15461406K now JC-244091Y), 14 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

J ROYCHOWDHARY  
Under Secy

No. 400, Dated 25th June 2010—The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

**INDIAN AIR FORCE  
(AE BRANCH)**

To be Subs Air Vice Marshal

AVM AK Singh (14616) AE (L), 17 Aug 2009

AVM P Kanakaraj (15066) AE (M), 17 Aug 2009

AVM SC Luthra (15105) AE (L), 17 Aug 2009

AK SINGH  
Dy Dir of Personnel (Officers)-2(B)

**AIR FORCE**

No. 401, Dated 25th June 2010—The President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

**INDIAN AIR FORCE  
(ADMN BRANCH)**

Sqn Ldr to be Subs Wg Cdr

DN Pandey (23916) AE (L), 20 Jan 2009

N VIJAY KUMAR  
Wg Cmdr  
Jt Director  
Personnel Officer-3(D)

**DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION**

No. 402, Dated 25th June 2010—The President is pleased to promote the following officers from existing grade wef the date (F/N) as mentioned against each :—

Name, Lab/Estt., Existing Grade, Promoted to, Pay Band + Grade Pay of promoted grade (in Rs.) & Date of Charge Assumption in the promoted grade.

Devendra Pal Singh, ADRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

Devendra Singh (SC), ADRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

MS Meena (ST), ADRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5400/-), 01 Sep 2009

PK Gupta, ADRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5400/-), 01 Sep 2009

Uday Veer Singh (SC), ADRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5400/-), 01 Sep 2009

Rajesh Kumar (SC), ADRDE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

Naushad Ahmed, ADRDE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

T Naresh Singh, ANURAG, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

R Jaganathan, Cabs, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

Shobha Vasudeva, CCE(N), TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/- GP+7,600/-), 01 Sep 2009

M Muathukumaran, CCE(N), TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

Rajeev Kumar, CCE(N), STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

GVM MJ Nagaraju, CCE(N), STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

R Mahender, CCE(S), STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

VK Girhotra, DESIDOC, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/- GP+7,600/-), 09 Sep 2009

AK Singh, DESIDOC, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

Rajpal Singh (SC), DESIDOC, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

Rakesh Kumar, DESIDOC, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 03 Sep 2009

I P Pal, DMSRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

Prateep Bhattacharya, DMSRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

A H Ansari, DMSRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

Bhanu Prakash (SC), DMSRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

Sudhakar Gupta, DMSRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

G D Dhyani, DMSRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

Ram Singh, DMSRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

Chandra Shekhar (SC) DMSRDE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

S K Agarwal, DMSRDE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

Rakesh Kumar Yadav, DMSRDE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

M Jagan Mohan Rao, DRDL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/- GP+7,600/-), 01 Sep 2009

N Venkateswarlu, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

S Selva Raj, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

I Srinivasa Rao, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

M Rama Krishna, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

Kota Veeraiah (SC), DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

Tarun Kumar De, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

G L Varaprasad Rao (SC), DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

P Sunanda Devi, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

M Sudershan, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

D K Neware (SC), DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

M V Ramana, DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

K Shanker (SC), DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

K V Ramana, DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

G Murali Krishna Rao, DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

T J Prashanth, DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

Madholkar Laxman, DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

D Krishnamurthy, DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

A Narsing Rao (SC), DRDL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

K Venkata Lakshmi, DRDL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

S P Narsingh Rao, DRDL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

T Kumaraswamy (SC), DRDL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

B Raj Kumar (SC), DRDL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

B Gopalkrishna, (SC) DRDL, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

D Sharanappa, DRDL, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

P J Kamale (SC), HEMRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/- GP+7,600/-), 01 Sep 2009

R Danial, HEMRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/- GP+7,600/-), 01 Sep 2009

P G Kulkarni, HEMRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/- GP+7,600/-), 01 Sep 2009

A M Devale, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

C K Ghatak, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

N R Shah, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

N T Chitale, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

L D Nalage, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

A V Basale, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

S Raman, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

M T Shedge, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

K M Dhulekar, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

S B Yadao, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

S H Vaidya, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

G M Yashvant (ST), HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

D S Jadhav, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

A A Tamboli, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

D D Gaikwad, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

K B Deshmukh, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

M P Thakar, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

S S Ilake, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

V V Jadhav, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

A M Kotbagi, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

G G Pechfule, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

V V Kulkarni, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

R N Pundkar, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

B G Padale (SC), HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

A R Kulkarni, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

R G Bhalerao (SC), HEMRL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/- GP+4,800/-), 01 Sep 2009

Seema Saxena, ISSA, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

George Abraham, MTRDC, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

S K Arut Pavai (SC), MTRDC, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

J A Karnik, NMRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/- GP+7,600/-), 01 Sep 2009

Dharmant Singh, NMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

Jerard Lakra, (ST) NMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

N G Malvankar, NMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

Kuljeet Kaur, SAG, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/- GP+7,600/-), 07 Sep 2009

R P Singh, SAG, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/- GP+6,600/-), 01 Sep 2009

Jagdish Prasad (SC), SAG, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/- GP+5,400/-), 01 Sep 2009

B B SHARMA  
Jt Dir (Pers-I)

## ARMY BRANCH

No. 403, dated 28th June 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 05 Dec 2008 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

#### To be Capt

Rakesh Kumar Gautam (MS-15393Y) (MR-08937A), AMC, 22 Sep 2006 with seniority for pay and promotion from 22 Sep 2004 (this includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in Anaesthesiology which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 09 Feb 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 01 Jul 2009 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

#### To be Capt

Bharat (MS-15391N) (MR-08936X), AMC, 22 Sep 2006 with seniority for pay and promotion from 22 Sep 2003 (this includes 36 months antedate seniority for Master of Surgery which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 09 Feb 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 30 Dec 2009 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

#### To be Capt

Shailendra Kumar Sharma (MS-15441N) (MR-08938H), AMC, 22 Jan 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 24 Nov 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 05 Dec 2008 and to grant him/her Permanent

Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

To be Lt

Shailesh Mogra (MS-14932X) (MR-08934M), AMC, 21 Feb 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jun 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 15 Jun 2006 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

To be Surg Lt (On Prob)

K Ananth Kini (MS-14393M/75796N) (MR-08616H), AMC, 18 Feb 2002 with seniority for pay and promotion from 18 Aug 2001 this includes 06 months antedate seniority for hospital appointment which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 11 Nov 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE  
Brig  
Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 404, dated 28th June 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

IC No., Rank, Name, Arms/Ser and Date of Permature Retirement

- (IC-40764) Col Ravi Menon, Arty, 01 Nov 2008 (AN)
- (IC-44565) Col Brijesh Kumar Singh, Inf, 22 Jun 2008 (AN)
- (IC-42757) Col Virender Singh Malik, Inf, 05 Jul 2008 (AN)
- (IC-35931) Col Arun Kumar Sharma, Inf, 25 Jan 2008 (AN)
- (IC-44678) Col Uppal Jatinder Pal Singh, Inf, 29 Mar 2009 (AN)
- (IC-35865) Col R S Nehra, AEC, 31 Oct 2008

(IC-39128) Col Ratnadeep Umakantrao Nandgaonkar, AAD, 04 Jul 2009 (AN)

(IC-40188) Col (TS) Kapil Deo Prasad, Arty, 12 Oct 2008 (AN)

(IC-37589) Col (TS) Dutta Ashish Kumar, AAD, 30 Nov 2008 (AN)

(IC-38741) Col Jasvarinder Singh, AC, 31 Oct 2009 (AN)

(IC-38195) Col Milind Sharadchandra Solke, EME, 03 Jul 2008 (AN)

(IC-41732) Col Navneet Kumar Ghai, EME, 21 Mar 2009 (AN)

(IC-43234) Col Arney Chitkara, AC, 11 Jan 2010 (AN)

(IC-42314) Col Dhaliwal Jagjit Singh, Arty, 28 Jan 2010 (FN)

(IC-39810) Col Saurabh Sanyal, Engrs, 11 Sep 2009 (AN)

(IC-41861) Col Rajesh Sood, EME, 31 Jan 2009 (AN)

(IC-44879) Col R S Venkata Ramana, EME, 02 Sep 2008 (AN)

(IC-43777) Col Prashant POAK, Arty, 08 Feb 2010 (AN)

(IC-38871) Col Rajesh Sinha, Arty, 03 Nov 2008 (AN)

(IC-47069) Col S S Khera, Engrs, 31 Jul 2009 (AN)

(IC-40347) Col Aniruddha Narasimha Gudi, Sigs, 16 Dec 2009 (AN)

(IC-39007) Col (TS) Arun Ambre, AOC, 25 Jul 2007 (AN)

(IC-39331) A/Col Shyamji Mehrotra, AOC, 10 Apr 2006 (AN)

(IC-40308) Col Sanjay Kumar Saxena, Sigs, 14 Feb 2008 (AN)

(IC-35623) Col Raj Kamal Kapur, Sigs, 30 Nov 2009 (AN)

The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers (Class X), under SAI 10/S/63 as amended :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

IC No., Rank, Name, Arms/Ser and Date of Permature Retirement

- (IC-41772) Lt Col Hare Ram Singh, EME, 11 Jan 2010 (AN)
- (IC-47221) Lt Col G Mathialagan, Arty, 06 Dec 2009 (AN)
- (IC-48705) Lt Col G Karthikeyan, Arty, 12 Jan 2010
- (SL-04598) Lt Col Dubey Daya Shankar, GS, 16 Dec 2008
- (IC-58190) Maj Vivek Singh, Arty, 28 Dec 2009 (AN)
- (IC-44347) Lt Col Leeladhar Sharma, Arty, 31 Dec 2009 (AN)

(IC-44452) Lt Col Awani Kumar Tewari, EME, 18 Nov 2009 (AN)

(IC-48114) Lt Col Shakotai Karan Sampath, EME, 31 Oct 2009 (AN)

(IC-44883) Lt Col Sunny Thomas, EME, 11 Oct 2009 (AN)

(IC-51401) Lt Col Baljeet Singh, EME, 09 Sep 2009 (AN)

(IC-44433) Lt Col K Joseph, EME, 20 Apr 2008 (AN)

(IC-42250) Lt Col Gunnu Bhaskara Rao, Engrs, 30 Jun 2008 (AN)

(IC-44131) Lt Col Jaswal Shashi Kant, EME, 31 Oct 2009 (AN)

(IC-44698) Lt Col Mohinder Kumar Yadav, ASC, 31 Jul 2008 (AN)

(SL-04275) Lt Col Chandra Pal Singh, AOC, 31 Oct 2009 (AN)

(IC-42170) Lt Col Subhash Chander Kohar, Arty, 30 Nov 2008 (AN)

(IC-51799) Lt Col Venkata Venu Madhav P, EME, 10 Jan 2009 (AN)

(IC-49404) Lt Col Georgy P Kuriën, EME, 10 Oct 2009 (AN)

(SC-00148) Maj Bodas Vivek Gangadhar, EME, 31 Oct 2009 (AN)

(IC-48570) Lt Col Manjeet Singh, Mech Inf (GUARDS), 06 Jan 2010 (AN)

(IC-46101) Lt Col B S Rajmohan, AAD, 29 Mar 2009 (AN)

(IC-44289) Lt Col Aman Singh Yadav, ASC, 21 Jan 2009 (AN)

(IC-55775) Maj Harbinder Singh Bains, AEC, 02 May 2009 (AN)

(IC-46260) Lt Col Navneet Singh Baweja, AC, 08 Mar 2010 (AN)

(IC-57058) Maj Jitender Harjai, Arty, 31 Jan 2010 (AN)

(IC-42840) Lt Col Sanjay Singh, Engrs, 22 Apr 2008 (AN)

(IC-48022) Lt Col Shiv Kumar Katara, Engrs, 30 Sep 2008 (AN)

(IC-42060) Lt Col Anil Tiwari, Engrs, 30 Sep 2008 (AN)

(IC-48576) Lt Col Nitin Raj, Sigs, 06 Dec 2009 (AN)

(IC-44990) Lt Col P R P Raju, Engrs, 07 Dec 2009 (AN)

(IC-47091) Lt Col G R B Devanandam, AOC, 31 Oct 2009 (AN)

(IC-49093) Lt Col Sandeep Kumar Dahiya, INT, 20 Jan 2010 (AN)

(IC-51471) Lt Col Benny Mathew, AOC, 30 Nov 2009 (AN)

(IC-44820) Lt Col Sunny K A, Engrs, 31 Oct 2009 (AN)

(IC-45242) Lt Col Parvinder Singh, Engrs, 07 Dec 2009 (AN)

(IC-40877) Lt Col Jaspal Singh Reen, Engrs, 06 Dec 2009 (AN)

(IC-44947) Lt Col Naresh Gupta, Engrs, 21 Jan 2009 (AN)

(SL-3938) Lt Col George C J, Gen-Serv, 08 Apr 2007 (AN)

(IC-41267) Lt Col Kuldeep Rana, AOC, 31 Jul 2006 (AN)

(IC-44844) Lt Col Sanjay Johri, AOC, 11 Jan 2008 (AN)

(IC-43068) Lt Col Atul Marwaha, AOC, 28 Jul 2006 (AN)

(IC-43972) Lt Col Arun Sindhwani, AOC, 14 Nov 2006 (AN)

(IC-41721) Lt Col Ranjit Singh Garewal, AOC, 30 Sep 2006 (AN)

(IC-43242) Lt Col Narendra Singh Shekhawat, AOC, 24 Oct 2006 (AN)

(IC-44399) Lt Col Ashok Sharma, AOC, 28 Feb 2007 (AN)

(IC-48383) Lt Col Sandeep Yadav, AOC, 15 Feb 2009 (AN)

(IC-49491) Lt Col Chandra Shekhar, AOC, 22 Dec 2008 (AN)

(IC-48360) Lt Col Shoibal Chatterji, Sigs, 11 Oct 2009 (AN)

(SL-3861) Lt Col Bhaskaran K P, Sigs, 11 Oct 2008 (AN)

(IC-48673) Lt Col Ranvir Singh Yadav, SM, Mech Inf, 31 Dec 2009 (AN)

(IC-47059) Lt Col Ajay Bhatia, EME, 11 Oct 2008 (AN)

(IC-47235) Lt Col K Ramesh Kumar, EME, 29 Jul 2008 (AN)

(IC-47982) Lt Col Alok Kinra, EME, 03 Jul 2008 (AN)

(IC-41956) Lt Col Mohan Kumar, EME, 31 Jul 2008 (AN)

(IC-48440) Lt Col Ashit Mahapatra, EME, 30 Apr 2008 (AN)

(IC-54284) Lt Col Sunil Kumar V, EME, 27 Jan 2010 (AN)

(IC-47989) Lt Col Prasenjit Chakravorty, EME, 01 Sep 2008 (AN)

(IC-43792) Lt Col Mandadi S Reddy, Arty, 13 Aug 2008 (AN)

(IC-47775) Lt Col Daljit Singh Padda, Arty, 16 Aug 2008 (AN)

(IC-44778) Lt Col Mukesh Rangra, Arty, 28 Jun 2008 (AN)

(IC-43732) Lt Col Vikram Singh, Arty, 29 Feb 2008 (AN)

(IC-47893) Lt Col Sudhanshu Chaturvedi, Arty, 25 Aug 2008 (AN)

(IC-57951) Maj J Suresh, EME, 27 Jan 2010 (AN)  
 (IC-43327) Lt Col N S Pandian, Arty, 10 Jan 2009 (AN)  
 (IC-46932) Lt Col Narender Singh Chhikara, Arty, 03 Feb 2009 (AN)  
 (IC-45917) Lt Col C P Prem Vas, Arty, 10 Jan 2009 (AN)  
 (IC-44355) Lt Col Ahluwalia Rajendra Pal Singh, Engrs, 03 Apr 2008 (AN)  
 (IC-40334) Lt Col Tanneru Srinivas Rangarao, Engrs, 03 Nov 2008 (AN)  
 (IC-47508) Lt Col Praveen Kaul, Engrs, 25 Jun 2008 (FN)  
 (IC-48173) Lt Col Munish Narad, Sigs, 31 Jan 2010 (AN)  
 (IC-48951) Maj Rajashekhar S Patil, Engrs, 25 Sep 2009 (AN)  
 (SL-4059) Lt Col Gurbux Singh, Sigs, 07 Jan 2007 (AN)  
 (IC-43550) Lt Col Alok Karunakar, Sigs, 18 Dec 2006 (AN)  
 (IC-42731) Lt Col Inderjit Singh Dhillon, Sigs, 29 Mar 2009 (AN)  
 (IC-47967) Lt Col R Venkataswara Rao, Engrs, 11 Oct 2008 (FN)

S K CHAKRABORTY  
 Jt Dir  
 MS/PR

## ARMY BRANCH

No. 405, dated 28th June 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :—

TERRITORIAL ARMY  
RETIREMENT

Lt Col R K N Parmar (TA-41766), Engr, 31 Dec 2008 (AN)

JAI RAJ  
 Under Secy

## ARMY BRANCH

No. 406, dated 28th June 2010—

## CORRIGENDUM

Lt to be Capt

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 530/2007 published on 27 Oct 2007 under the heading "Regular Army, Short Service Commission (WS)" and sub heading "Lt to be Capt" the following amendment is made :—

|      |   |                                |
|------|---|--------------------------------|
| FOR  | : | Rishma Sarin, ASC, 01 Sep 2006 |
| READ | : | — Blank —                      |

JASWANT SINGH  
 Jt Dir  
 MS-8C